



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 32] नई दिल्ली, शनिवार, अगस्त 11—अगस्त 17, 2012 (श्रावण 20, 1934)  
No. 32] NEW DELHI, SATURDAY, AUGUST 11—AUGUST 17, 2012 (SRAVANA 20, 1934)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके  
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

## भाग I—खण्ड 2

### [PART I—SECTION 2]

[(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों व छुट्टियों आदि से सम्बन्धित अधिसूचनाएं]

[Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Govt. Officers issued by the Ministries of the Govt. of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

प्रधान मंत्री कार्यालय

नई दिल्ली-110011, दिनांक 11 जुलाई 2012

सं. ए. 22012/2/2012-पीएमई--राष्ट्रपति, प्रधान मंत्री कार्यालय में संयुक्त सचिव श्री एल. के. अतीक, भा. प्र. से. (केएन : 91) की केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति की अवधि को दिनांक 12.08.2014 तक बढ़ाती है।

आर. मैथिली, अवर सचिव

मंत्रिमण्डल सचिवालय

नई दिल्ली, दिनांक 13 जून 2012

सं. ए-19015/01/2012-प्रशा.-1--राष्ट्रपति, वनस्पति संरक्षण, संगरोध तथा भंडारण निदेशालय, कृषि और सहकारिता विभाग के श्री तिलक राज अरोड़ा, एपीपीओ (केम) को राष्ट्रीय प्राधिकरण, रासायनिक हथियार समझौता, मंत्रिमण्डल सचिवालय में प्रतिनियुक्ति आधार पर 9,300--34,800/- रुपए के संशोधित वेतन बैंड पीबी-2 + 4,800/- रुपए ग्रेड वेतन में 13 जून, 2012 के अपराहन से तीन वर्ष की अवधि के लिए अथवा अगले आदेशों तक, इनमें से जो भी पहले हो, तकनीकी अधिकारी के रूप में नियुक्त करते हैं।

के. जे. सिबिचन, अवर सचिव

योजना आयोग

नई दिल्ली, दिनांक 19 जुलाई 2012

सं. ए-12025/2/2011-प्रशासन--1--राष्ट्रपति, डॉ. (श्रीमती) पूनम श्रीवास्तव, नियमित वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी (परियोजना मूल्यांकन), योजना आयोग को योजना आयोग में पे बैंड-3 में रु. 15,600--39,100/- + ग्रेड वेतन रु. 7,600/- के वेतनमान में उपसलाहकार (पिछड़ा वर्ग और जनजातीय विकास) के पद पर प्रोन्नति के आधार पर दिनांक 04.07.2012 से या अगले आदेशों तक नियुक्त करते हैं।

एस. मुखर्जी, निदेशक (प्रशासन-1)

नई दिल्ली, दिनांक 20 जुलाई 2012

सं. ए-12025/11/2010-प्रशासन-1--योजना आयोग के दिनांक 18 नवम्बर, 2011 के समसंख्यक अधिसूचना के अनुक्रम में राष्ट्रपति, श्री वी. पी. गर्ग की योजना आयोग में पीबी-3 रु. 15,600--39,100/- + ग्रेड पे रु. 7,600/- के वेतनमान में उप-सलाहकार (सामाजिक) के पद पर तदर्थ नियुक्ति की अवधि को दिनांक 23.02.2012 से अगले छह महीनों के लिए अथवा अगले आदेशों तक, इनमें से जो भी पहले हो, बढ़ाते हैं।

2. बाकी सारी शर्तें वहीं होंगी जो कि योजना आयोग के समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 25 अगस्त, 2010 में निहित हैं।

जी. राजीव, अवर सचिव

#### संसदीय कार्य मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 3 जुलाई 2012

सं. फा.3(15)/1997-प्रशासन--कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के पत्र सं. 25/1/2012-ई.ओ.(एस.एम.1) दिनांक 02 जुलाई, 2012 के अनुसरण में, राष्ट्रपति ने श्री देश दीपक वर्मा, भा. प्र. से. (उ.प्र. : 78) को दिनांक 02.07.2012 (अपराह्न) से सचिव, संसदीय कार्य मंत्रालय के रूप में नियुक्त किया है।

रामेश्वर प्रसाद, अवर सचिव

#### विधि और न्याय मंत्रालय (विधि कार्य विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 16 जुलाई 2012

सं. ए-32013/02/2010-प्रशा.-IV(वि.का.)--राष्ट्रपति, श्री वी. के. टंडन, वरिष्ठ प्रधान निजी सचिव के कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 04.05.2012 के का. ज्ञा. सं. 2/4/2011-सी.एस.-2(ए) के तहत डाक विभाग से स्थानांतरण होकर इस विभाग में अपने पद का कार्यग्रहण करने पर उन्हें दिनांक 12.06.2012 के पूर्वाह्न से वेतन बैंड-3, रु. 15,600--39,100/- में ग्रेड वेतन रु. 7,600/- सहित विधि कार्य विभाग के केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा संवर्ग की नफरी पर लेते हैं।

आशा सोटा, अवर सचिव

#### गृह मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 27 जुलाई 2012

सं. आई-18012/3/2012-आईपीएस-1--भारतीय पुलिस सेवा (परिवीक्षा) नियम, 1954 के नियम 3-क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रपति कर्नाटक संवर्ग को आर्बिट्रि भारतीय पुलिस सेवा के निम्नलिखित सदस्यों को, प्रत्येक के सामने दर्शाई गई तारीखों से भारतीय पुलिस सेवा में स्थायी करते हैं :-

क्र. सं.	नाम	भारतीय पुलिस सेवा में स्थायी किए जाने की तारीख
1.	श्री स्वपन कुमार मैती, (एस.पी.एस. : 98)	23.03.2006
2.	श्री देवाशीष घोष, (एस.पी.एस. : 98)	23.03.2006
3.	श्री दिलीप बंधोपाध्याय, (एस.पी.एस. : 98)	23.03.2005
4.	श्री बिस्वरूप घोष, (एस.पी.एस. : 98)	23.03.2005
5.	श्री सुभासीश चटर्जी, (एस.पी.एस. : 98)	23.03.2006

एन. के. जॉब, अवर सचिव

#### कार्मिक लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय (कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 16 जुलाई 2012

सं. 20/जी/1136-प्रशा.-I--अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने पर, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के श्री अजय सक्सेना, अनुभाग अधिकारी 30 जून, 2012 अपराह्न से सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त हो गए।

प्रिया महादेवन, अवर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 23 जुलाई 2012

सं. 23012/6/2012-अ.भा.से.-III--वर्ष 2010 में आयोजित सिविल सेवा परीक्षा के आधार पर और केरल संवर्ग की भारतीय प्रशासनिक सेवा में नियुक्त सुश्री वीना एन. एम. को सुश्री वीना एन. एम. से सुश्री वीना एन. माधवन नाम बदलने की अनुमति दी गई है। तदनुसार वह सभी कार्यालय उद्देश्यों के लिए सुश्री वीना एन. माधवन के रूप में पहचानी जाएंगी।

नवनीत मिश्रा, अवर सचिव

#### विदेश मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 14 मार्च 2011

सं. क्यू/पीए-1/09/2011--तुर्की में भारत के राजदूत के पद पर पदस्थ भारतीय विदेश सेवा में ग्रेड-I के अधिकारी स्वर्गीय श्री आर. एस. जस्सल का 11.03.2011 को सेवा के दौरान निधन हो गया।

कार्तिक पांडे, अवर सचिव (एफएसपी)

दिनांक 1 सितम्बर 2011

सं. क्यू/पीए-1/39/2011--श्री तलमीज अहमद, रियाद में भारत के राजदूत, अधिवर्षिता की आयु प्राप्त कर लेने पर 31 अगस्त, 2011 के अपराह्न में भारतीय विदेश सेवा के ग्रेड-I से सेवानिवृत्त हो गए हैं।

कार्तिक पांडे, अवर सचिव (एफएसपी)

सं. क्यू/पीए-1/37/2011--श्री श्रीचंद, भारतीय दूतावास मस्कट में कौंसुलर, अधिवर्षिता की आयु प्राप्त कर लेने पर 31 अगस्त, 2011 के अपराह्न में भारतीय विदेश सेवा के ग्रेड-IV से सेवानिवृत्त हो गए हैं।

कार्तिक पांडे, अवर सचिव (एफएसपी)

दिनांक 5 सितम्बर 2011

सं. क्यू/पीए-1/40/2011--राष्ट्रपति भारतीय विदेश सेवा (आईएफएस) के ग्रेड-III के निम्नलिखित अधिकारी को उनके नाम

के आगे दर्शायी गई तारीख से इसी सेवा के ग्रेड-II में स्थानापन्न रूप से नियुक्त करती हैं :--

क्र. सं.	नाम	वर्तमान ग्रेड	पदोन्नति के बाद ग्रेड	पदोन्नति की तारीख
1.	श्री वी. प्रनातार्थिहरन	भारतीय विदेश सेवा का ग्रेड-III	भारतीय विदेश सेवा का ग्रेड-II	01.09.2011
2.	श्री आर. स्वामीनाथन	भारतीय विदेश सेवा का ग्रेड-III	भारतीय विदेश सेवा का ग्रेड-II	01.09.2011

2. भारतीय विदेश सेवा के ग्रेड-II में प्रोन्नत होने पर, उपर्युक्त अधिकारियों ने उनके नाम के आगे दर्शायी गई तारीख से भारतीय विदेश सेवा के ग्रेड-III के पद का अधित्याग कर दिया और उसी तारीख के पूर्वाह्न से भारतीय विदेश सेवा के ग्रेड-II के पद का कार्यभार संभाल लिया।

कार्तिक पांडे, अवर सचिव (एफएसपी)

दिनांक 16 सितम्बर 2011

सं. क्यू/पीए-1/41/11--राष्ट्रपति, श्रीमती निरुपमा राव को पदभार ग्रहण करने की तिथि अर्थात् 06.09.2011 के (पूर्वाह्न) से दो वर्ष की अवधि के लिए भारतीय विदेश सेवा, ग्रेड-I में संयुक्त राज्य अमरीका (वाशिंगटन) में भारतीय राजदूत के रूप में नियुक्त करती हैं।

कार्तिक पांडे, अवर सचिव (एफएसपी)

दिनांक 27 सितम्बर 2011

सं. क्यू/पीए-1/42/2011--भारतीय विदेश सेवा/आबंटन वर्ष 1996 बैच की अधिकारी, सुश्री मंजु, विवाह के पश्चात् अब श्रीमती मंजु सेठ के नाम से जानी जाएंगी।

कार्तिक पांडे, अवर सचिव (एफएसपी)

दिनांक 3 अक्टूबर 2011

सं. क्यू/पीए-1/43/2011--अधिवर्षिता की आयु प्राप्त कर लेने पर, श्री मनबीर सिंह, सचिव (ईआर) 30 सितम्बर, 2011 को अपराह्न में भारतीय विदेश सेवा के ग्रेड-I से सेवानिवृत्त हो गए हैं।

कार्तिक पांडे, अवर सचिव (एफएसपी)

सं. क्यू/एफए-1/44/2011--अधिवर्षिता की आयु प्राप्त कर लेने पर, सुश्री सरिता बाली, अपर सचिव, (आर एण्ड आर) 30 सितम्बर, 2011 को अपराह्न में भारतीय विदेश सेवा के ग्रेड-II से सेवानिवृत्त हो गई हैं।

कार्तिक पांडे, अवर सचिव (एफएसपी)

सं. क्यू/एफए-1/45/2011--आईसलैण्ड में भारत के राजदूत, श्री एस. स्वामीनाथन, अधिवर्षिता की आयु प्राप्त कर लेने पर 30 सितम्बर, 2011 को अपराह्न में भारतीय विदेश सेवा के ग्रेड-III से सेवानिवृत्त हो गए हैं।

कार्तिक पांडे, अवर सचिव (एफएसपी)

सं. क्यू/एफए-1/46/2011--कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य में भारत के राजदूत, श्री देवेन्द्र नाथ श्रीवास्तव, अधिवर्षिता की आयु प्राप्त कर लेने पर 30 सितम्बर, 2011 को अपराह्न में भारतीय विदेश सेवा के ग्रेड-III से सेवानिवृत्त हो गए हैं।

कार्तिक पांडे, अवर सचिव (एफएसपी)

दिनांक 14 अक्टूबर 2011

सं. क्यू/पीए-1/47/2011--राष्ट्रपति भारतीय विदेश सेवा (आईएफएस) के ग्रेड-III के निम्नलिखित अधिकारियों को उनके नाम के आगे दर्शायी गई तारीख से इसी सेवा के ग्रेड-II में स्थानापन्न रूप से नियुक्त करती हैं :--

क्र. सं.	नाम	वर्तमान ग्रेड	पदोन्नति के बाद ग्रेड	पदोन्नति की तारीख
	श्री/श्रीमती/सुश्री			
1.	योगेश्वर वर्मा	भारतीय विदेश सेवा के ग्रेड-III	भारतीय विदेश सेवा के ग्रेड-II	01.10.2011
2.	स्मिता पुरुषोत्तम	भारतीय विदेश सेवा के ग्रेड-III	भारतीय विदेश सेवा के ग्रेड-II	03.10.2011

2. भारतीय विदेश सेवा के ग्रेड-II में प्रोन्नत होने पर, उपरोक्त अधिकारियों ने उनके नाम के आगे दर्शायी गई तारीख के पूर्वाह्न में भारतीय विदेश सेवा के ग्रेड-III के पद का अधित्याग कर दिया है और उसी तारीख के पूर्वाह्न से भारतीय विदेश सेवा के ग्रेड-II के पद का कार्यभार संभाल लिया।

कार्तिक पांडे, अवर सचिव (एफएसपी)

दिनांक 1 नवम्बर 2011

सं. क्यू/पीए-1/50/2011--श्री आजाद सिंह तूर, अनतानानारिवो में भारत के राजदूत, अधिवर्षिता की आयु प्राप्त कर लेने पर 31 अक्टूबर, 2011 के अपराह्न में भारतीय विदेश सेवा के ग्रेड-III से सेवानिवृत्त हो गए हैं।

कार्तिक पांडे, अवर सचिव (एफएसपी)

सं. क्यू/पीए-1/08/2011--श्री असित कुमार नाग, भारतीय उच्चायुक्त, सेशलस गणराज्य (विकटोरिया) ने 31.01.2011 को भारतीय विदेश सेवा के ग्रेड-III पद में अधिवर्षिता की आयु प्राप्त कर लेने के पश्चात् अपनी

छह महीने की 01.02.2011 से 31.07.2011 तक की पुनर्नियुक्ति की अवधि पूरी कर ली है।

कार्तिक पांडे, अवर सचिव (एफएसपी)

-----

सं. क्यू/पीए-1/48/2011--श्री आर. के. पुरी, भारतीय दूतावास, ब्रातिसलावा में कंसुलर अधिवर्षिता की आयु प्राप्त कर लेने पर 31 अक्टूबर, 2011 के अपराह्न में भारतीय विदेश सेवा के ग्रेड-IV पद से सेवानिवृत्त हो गए हैं।

कार्तिक पांडे, अवर सचिव (एफएसपी)

-----

दिनांक 1 दिसम्बर 2011

सं. क्यू/पीए-1/52/2011--श्री एस. आर. तयाल, सिओल में भारत के राजदूत, अधिवर्षिता की आयु प्राप्त कर लेने पर 30 नवम्बर, 2011 के अपराह्न में भारतीय विदेश सेवा के ग्रेड-I (स्वस्थाने) पद से सेवानिवृत्त हो गए हैं।

कार्तिक पांडे, अवर सचिव (एफएसपी)

-----

सं. क्यू/पीए-1/53/2011--श्री के. जोसेफ फ्रांसिस, बमाको में भारत के राजदूत, अधिवर्षिता की आयु प्राप्त कर लेने पर 30 नवम्बर, 2011 के अपराह्न में भारतीय विदेश सेवा के ग्रेड-III से सेवानिवृत्त हो गए हैं।

कार्तिक पांडे, अवर सचिव (एफएसपी)

-----

दिनांक 5 दिसम्बर 2011

सं. क्यू/पीए-1/54/2011--राष्ट्रपति वर्तमान में भारतीय विदेश सेवा (आईएफएस) के ग्रेड-III के निम्नलिखित अधिकारी को उनके नाम के आगे दर्शायी गई तारीख से इसी सेवा के ग्रेड-II में स्थानापन्न रूप से नियुक्त करती हैं :--

नाम	वर्तमान ग्रेड	पदोन्नति के बाद ग्रेड	पदोन्नति की तारीख
अलादियन	भारतीय विदेश सेवा का ग्रेड-III	भारतीय विदेश सेवा का ग्रेड-II	01.12.2011

2. भारतीय विदेश सेवा के ग्रेड-II में प्रोन्नत होने पर, उपर्युक्त अधिकारी ने 01 दिसम्बर, 2011 के पूर्वाह्न से भारतीय विदेश सेवा के ग्रेड-III के पद का अधित्याग कर दिया और 01 दिसम्बर, 2011 के पूर्वाह्न से भारतीय विदेश सेवा के ग्रेड-II के पद का कार्यभार संभाल लिया है।

कार्तिक पांडे, अवर सचिव (एफएसपी)

-----

दिनांक 2 जनवरी 2012

सं. क्यू/पीए-1/02/2012--अधिवर्षिता की आयु प्राप्त कर लेने पर श्री कोचेरील वेलायुधन भागीरथ, भारत के उच्चायुक्त, तंजानिया

31 दिसम्बर, 2011 के अपराह्न से भारतीय विदेश सेवा के ग्रेड-II से सेवानिवृत्त हो गए हैं।

कार्तिक पांडे, अवर सचिव (एफएसपी)

-----

सं. क्यू/पीए-1/04/2012--अधिवर्षिता की आयु प्राप्त कर लेने पर श्री डी. किशोर देब वर्मा 31 दिसम्बर, 2011 के अपराह्न से भारतीय विदेश सेवा के ग्रेड-IV से सेवानिवृत्त हो गए हैं।

कार्तिक पांडे, अवर सचिव (एफएसपी)

-----

सं. क्यू/पीए-1/03/2012--अधिवर्षिता की आयु प्राप्त कर लेने पर श्रीमती होमाई साहा 31 दिसम्बर, 2011 के अपराह्न से भारतीय विदेश सेवा के ग्रेड-II से सेवानिवृत्त हो गए हैं।

कार्तिक पांडे, अवर सचिव (एफएसपी)

-----

दिनांक 1 फरवरी 2012

सं. क्यू/पीए-1/06/2012--अधिवर्षिता की आयु प्राप्त कर लेने पर क्यूबा (हवाना) में भारत के राजदूत, श्री दीपक किशनचंद भोजवानी, भारतीय विदेश सेवा के ग्रेड-II पद से दिनांक 31.01.2012 के अपराह्न से सेवानिवृत्त हो गए हैं।

कार्तिक पांडे, अवर सचिव (एफएसपी)

-----

सं. क्यू/पीए-1/05/2012--अधिवर्षिता की आयु प्राप्त कर लेने पर पुर्तगाल (लिसबन) में भारत की राजदूत, सुश्री प्रिमरोज रैखान शर्मा, भारतीय विदेश सेवा के ग्रेड-I पद से दिनांक 31.01.2012 के अपराह्न से सेवानिवृत्त हो गयी हैं।

कार्तिक पांडे, अवर सचिव (एफएसपी)

-----

सं. क्यू/पीए-1/08/2012--अधिवर्षिता की आयु प्राप्त कर लेने पर भारत का प्रधान कंसलावास, एडिनबर्ग में भारत के प्रधान कंसुल, श्री अनिल के. आनंद, भारतीय विदेश सेवा के ग्रेड-III पद से दिनांक 31.01.2012 के अपराह्न से सेवानिवृत्त हो गए हैं।

कार्तिक पांडे, अवर सचिव (एफएसपी)

-----

सं. क्यू/पीए-1/07/2012--अधिवर्षिता की आयु प्राप्त कर लेने पर ग्वाटेमाला में भारत के राजदूत, श्री प्रवीण वर्मा, भारतीय विदेश सेवा के ग्रेड-III पद से दिनांक 31.01.2012 के अपराह्न से सेवानिवृत्त हो गए हैं।

कार्तिक पांडे, अवर सचिव (एफएसपी)

दिनांक 2 फरवरी 2012

सं. क्यू/पीए-1/09/2012--राष्ट्रपति, भारतीय विदेश सेवा (भा.वि.से.) के वर्तमान में ग्रेड-III के निम्नलिखित अधिकारियों को उनके नाम के आगे दर्शायी गई तारीख से इसी सेवा के ग्रेड-II में स्थानापन्न रूप से नियुक्त करती हैं :--

क्र. सं.	नाम	वर्तमान ग्रेड	पदोन्नति के बाद ग्रेड	पदोन्नति की तारीख
1.	श्री नैगचा लोवम मुखोपाध्याय	भारतीय विदेश सेवा का ग्रेड-III	भारतीय विदेश सेवा का ग्रेड-II	30.01.2012
2.	श्री राजिन्दर भगत	भारतीय विदेश सेवा का ग्रेड-III	भारतीय विदेश सेवा का ग्रेड-II	02.01.2012

2. भारतीय विदेश सेवा के ग्रेड-II में पदोन्नति होने पर, उपर्युक्त अधिकारियों ने उनके नाम के आगे दर्शायी गई तारीख के पूर्वाह्न में भारतीय विदेश सेवा के ग्रेड-III का पदभार त्याग दिया और उसी तारीख के पूर्वाह्न से भारतीय विदेश सेवा के ग्रेड-II में पदभार ग्रहण कर लिया है।

कार्तिक पांडे, अवर सचिव (एफएसपी)

दिनांक 23 फरवरी 2012

सं. क्यू/पीए-1/10/2012--राष्ट्रपति, भारतीय विदेश सेवा के ग्रेड-III के निम्नलिखित अधिकारियों को उनके नाम के आगे दर्शायी गई तारीख से इसी सेवा के ग्रेड-II में स्थानापन्न रूप से नियुक्त करती हैं :--

क्र. सं.	नाम	वर्तमान ग्रेड	पदोन्नति के बाद ग्रेड	पदोन्नति की तारीख
1.	श्री लाल थिया मुआना	भारतीय विदेश सेवा का ग्रेड-III	भारतीय विदेश सेवा का ग्रेड-II	09.02.2012
2.	श्री विजय केशवा गोखले	भारतीय विदेश सेवा का ग्रेड-III	भारतीय विदेश सेवा का ग्रेड-II	09.02.2012

2. भारतीय विदेश सेवा के ग्रेड-II में पदोन्नत होने पर, उपर्युक्त अधिकारियों ने अपने नामों के आगे दर्शायी गई तारीख के पूर्वाह्न में भारतीय विदेश सेवा के ग्रेड-III के पद का अधित्याग कर दिया है और उसी तारीख के पूर्वाह्न से भारतीय विदेश सेवा के ग्रेड-II के पद का कार्यभार संभाल लिया है।

कार्तिक पांडे, अवर सचिव (एफएसपी)

दिनांक 1 मार्च 2012

सं. क्यू/पीए-1/13/2012--अधिवर्षिता की आयु प्राप्त कर लेने पर श्री योगेन्द्र कुमार, मनीला में भारत के राजदूत, 29 फरवरी, 2012 के

अपराह्न में भारतीय विदेश सेवा के ग्रेड-I (स्वस्थाने) पद से सेवानिवृत्त हो गए हैं।

कार्तिक पांडे, अवर सचिव (एफएसपी)

सं. क्यू/पीए-1/11/2012--अधिवर्षिता की आयु प्राप्त कर लेने पर श्री हरदीप सिंह पुरी, संयुक्त राष्ट्र में भारत के राजदूत/स्थायी प्रतिनिधि, पीएमआई, न्यूयार्क, 29 फरवरी, 2012 के अपराह्न में भारतीय विदेश सेवा के ग्रेड-I से सेवानिवृत्त हो गए हैं।

कार्तिक पांडे, अवर सचिव (एफएसपी)

सं. क्यू/पीए-1/14/2012--अधिवर्षिता की आयु प्राप्त कर लेने पर श्री सुबित कुमार मंडल, भारतीय उच्चायोग जार्जटाउन में उच्चायुक्त, 29 फरवरी, 2012 के अपराह्न में भारतीय विदेश सेवा के ग्रेड-I (स्वस्थाने) पद से सेवानिवृत्त हो गए हैं।

कार्तिक पांडे, अवर सचिव (एफएसपी)

सं. क्यू/पीए-1/12/2012--भारतीय विदेश सेवा के ग्रेड-I एवं संयुक्त राष्ट्र, पीएमआई, न्यूयार्क में भारत के राजदूत/स्थायी प्रतिनिधि, श्री हरदीप सिंह पुरी के 29 फरवरी, 2012 (अपराह्न) को अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने के पश्चात राष्ट्रपति श्री हरदीप सिंह पुरी को 01.03.2012 से 28.02.2013 तक एक वर्ष की अवधि के लिए संयुक्त राष्ट्र, पीएमआई, न्यूयार्क में भारतीय विदेश सेवा के ग्रेड-I में भारत के राजदूत/स्थायी प्रतिनिधि के रूप में पुनः नियुक्त करती हैं।

कार्तिक पांडे, अवर सचिव (एफएसपी)

दिनांक 9 मार्च 2012

सं. क्यू/पीए-1/15/2012--राष्ट्रपति भारतीय विदेश सेवा (आईएफएस) के ग्रेड-II के निम्नलिखित अधिकारियों को 01 मार्च, 2012 के पूर्वाह्न से इसी सेवा के ग्रेड-I में स्थानापन्न रूप से नियुक्त करती हैं :--

क्र. सं.	नाम	वर्तमान ग्रेड	पदोन्नति के बाद ग्रेड
1.	श्री दिलीप सिन्हा	भारतीय विदेश सेवा का ग्रेड-II	भारतीय विदेश सेवा का ग्रेड-I
2.	श्री सुरेश कुमार गोयल	भारतीय विदेश सेवा का ग्रेड-II	भारतीय विदेश सेवा का ग्रेड-I

2. भारतीय विदेश सेवा के ग्रेड-I में प्रोन्नत होने पर, उपर्युक्त अधिकारियों ने 01 मार्च, 2012 के पूर्वाह्न से भारतीय विदेश सेवा के ग्रेड-II के पद का अधित्याग कर दिया और उसी तारीख के पूर्वाह्न से भारतीय विदेश सेवा के ग्रेड-I के पद का कार्यभार संभाल लिया है।

कार्तिक पांडे, अवर सचिव (एफएसपी)

सं. क्यू/पीए-1/16/2012--राष्ट्रपति वर्तमान भारतीय विदेश सेवा (आईएफएस) के ग्रेड-III के निम्नलिखित अधिकारियों को 01 मार्च, 2012 के पूर्वाह्न से इसी सेवा के ग्रेड-II में स्थापानन रूप से नियुक्त करती है :--

क्र. सं.	नाम	वर्तमान ग्रेड	पदोन्नति के बाद ग्रेड
1.	श्री अमरेन्द्र खटुआ	भारतीय विदेश सेवा का ग्रेड-III	भारतीय विदेश सेवा का ग्रेड-II
2.	श्री बनश्री बोस हैरिसन	भारतीय विदेश सेवा का ग्रेड-III	भारतीय विदेश सेवा का ग्रेड-II

2. भारतीय विदेश सेवा के ग्रेड-II में प्रोन्नत होने पर, उपर्युक्त अधिकारियों ने 01 मार्च, 2012 के पूर्वाह्न से भारतीय विदेश सेवा के ग्रेड-III के पद का अधित्याग कर दिया और उसी तारीख के पूर्वाह्न से भारतीय विदेश सेवा के ग्रेड-II के पद का कार्यभार संभाल लिया है।

कार्तिक पांडे, अवर सचिव (एफएसपी)

दिनांक 16 मार्च 2012

सं. क्यू/पीए-1/18/2012--राष्ट्रपति वर्तमान में भारतीय विदेश सेवा (भा.वि.से.) के ग्रेड-IV के निम्नलिखित अधिकारी को उनके नाम के आगे दी गई तारीख से इसी सेवा के ग्रेड-III में स्थापानन तौर पर नियुक्त करती है :--

नाम	वर्तमान ग्रेड	पदोन्नति के बाद ग्रेड	पदोन्नति की तारीख
डॉ. नीना मल्होत्रा	भारतीय विदेश सेवा का ग्रेड-IV	भारतीय विदेश सेवा का ग्रेड-III	09.12.2011

2. भारतीय विदेश सेवा के ग्रेड-III में प्रोन्नत होने पर, उपर्युक्त अधिकारी ने अपने नाम के आगे दी गई तारीख के पूर्वाह्न से भारतीय विदेश सेवा के ग्रेड-IV में अपने पद का अधित्याग कर दिया और उसी तारीख के पूर्वाह्न से भारतीय विदेश सेवा के ग्रेड-III में पदभार ग्रहण कर लिया है।

कार्तिक पांडे, अवर सचिव (एफएसपी)

सं. क्यू/पीए-1/17/2012--राष्ट्रपति वर्तमान में भारतीय विदेश सेवा (आईएफएस) के कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड (जेएजी) के निम्नलिखित अधिकारी को उनके नाम के आगे दर्शायी गई तारीख से इस सेवा के ग्रेड-IV में स्थापानन आधार पर नियुक्त करती है :--

नाम	वर्तमान ग्रेड	पदोन्नति के बाद ग्रेड	पदोन्नति की तारीख
श्री जगदीश प्रसाद मीणा	भारतीय विदेश सेवा का कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड-IV	भारतीय विदेश सेवा का ग्रेड-III	16.03.2012

2. भारतीय विदेश सेवा के ग्रेड-IV में पदोन्नत होने पर, उपर्युक्त अधिकारी ने अपने नाम के आगे दर्शायी गई तारीख के अपराह्न को भारतीय विदेश सेवा के कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड (जेएजी) में अपने पद का अधित्याग कर दिया तथा उसी तारीख को पूर्वाह्न से भारतीय विदेश सेवा के ग्रेड-IV में अपना कार्यभार ग्रहण कर लिया है।

कार्तिक पांडे, अवर सचिव (एफएसपी)

दिनांक 1 मई 2012

सं. क्यू/पीए-1/19/2012--अधिवर्षिता की आयु प्राप्त कर लेने पर श्री के. पी. पिल्लई, भारतीय उच्चायोग, अक्रा में कौंसुलर, भारतीय विदेश सेवा के ग्रेड-IV के पद से 30 अप्रैल, 2012 के अपराह्न में सेवानिवृत्त हो गए हैं।

कार्तिक पांडे, अवर सचिव (एफएसपी)

सं. क्यू/पीए-1/23/2011--अधिवर्षिता की आयु प्राप्त कर लेने पर श्री अजय स्वरूप, अवर सचिव, भारतीय विदेश सेवा के ग्रेड-II के पद से 30 अप्रैल, 2012 के अपराह्न में सेवानिवृत्त हो गए हैं।

कार्तिक पांडे, अवर सचिव (एफएसपी)

सं. क्यू/पीए-1/20/2012--अधिवर्षिता की आयु प्राप्त कर लेने पर श्री दोराइस्वामी राममूर्ति, भारतीय दूतावास, डब्लिन में कौंसुलर, भारतीय विदेश सेवा के ग्रेड-IV के पद से 30 अप्रैल, 2012 के अपराह्न में सेवानिवृत्त हो गए हैं।

कार्तिक पांडे, अवर सचिव (एफएसपी)

सं. क्यू/पीए-1/22/2012--अधिवर्षिता की आयु प्राप्त कर लेने पर श्री अचल कुमार मल्होत्रा, भारतीय दूतावास, येरेवान में राजदूत, भारतीय विदेश सेवा के ग्रेड-III के पद से 30 अप्रैल, 2012 के अपराह्न में सेवानिवृत्त हो गए हैं।

कार्तिक पांडे, अवर सचिव (एफएसपी)

सं. क्यू/पीए-1/21/2012--अधिवर्षिता की आयु प्राप्त कर लेने पर श्री विनोद कुमार सचदेवा, भारतीय दूतावास, ब्रासिलिया में मिशन उप प्रमुख, भारतीय विदेश सेवा के ग्रेड-III के पद से 30 अप्रैल, 2012 के अपराह्न में सेवानिवृत्त हो गए हैं।

कार्तिक पांडे, अवर सचिव (एफएसपी)

सं. क्यू/पीए-1/24/2012--श्री आजाद सिंह तूर, भारतीय विदेश सेवा के ग्रेड-III के अधिकारी एवं मेडागास्कर (अंतानानारिवो) में भारत के राजदूत, जो 31.10.2011 को भारतीय विदेश सेवा के ग्रेड-III के पद से

सेवानिवृत्त हो चुके थे, ने 01.11.2011 से 30.04.2012 की छह माह की अपनी पुनर्नियुक्ति की अवधि भी पूरी कर ली है।

कार्तिक पांडे, अवर सचिव (एफएसपी)

दिनांक 4 मई 2012

सं. क्यू/पीए-1/25/2012--राष्ट्रपति वर्तमान में भारतीय विदेश सेवा के कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड (जेएजी) के निम्नलिखित अधिकारी को उनके नाम के आगे दर्शायी गई तारीख से इस सेवा के ग्रेड-IV में स्थापानन आधार पर नियुक्त करती हैं :-

क्र. सं.	नाम	वर्तमान ग्रेड	पदोन्नति के बाद ग्रेड	पदोन्नति की तारीख
1	2	3	4	5
(श्री/श्रीमती/सुश्री)				
1.	सुरीन्द्र कुमार दत्ता	भारतीय विदेश सेवा का कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड	भारतीय विदेश सेवा का ग्रेड-IV	02.01.2012
2.	आर. गौरव श्रेष्ठ	भारतीय विदेश सेवा का कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड	भारतीय विदेश सेवा का ग्रेड-IV	01.01.2012
3.	राहुल श्रीवास्तव	भारतीय विदेश सेवा का कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड	भारतीय विदेश सेवा का ग्रेड-IV	02.01.2012
4.	गौरंगलाल दास	भारतीय विदेश सेवा का कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड	भारतीय विदेश सेवा का ग्रेड-IV	02.01.2012
5.	अनुराग श्रीवास्तव	भारतीय विदेश सेवा का कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड	भारतीय विदेश सेवा का ग्रेड-IV	02.01.2012
6.	मधुमिता हजारीका भगत	भारतीय विदेश सेवा का कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड	भारतीय विदेश सेवा का ग्रेड-IV	02.01.2012
7.	देवयानी उत्तम खोबरगड़े	भारतीय विदेश सेवा का कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड	भारतीय विदेश सेवा का ग्रेड-IV	02.01.2012
8.	आर. रविन्द्र	भारतीय विदेश सेवा का कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड	भारतीय विदेश सेवा का ग्रेड-IV	03.01.2012
9.	रविन्द्र पी. जयसवाल	भारतीय विदेश सेवा का कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड	भारतीय विदेश सेवा का ग्रेड-IV	02.01.2012
10.	के. एन. मोहनकुमारन	भारतीय विदेश सेवा का कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड	भारतीय विदेश सेवा का ग्रेड-IV	01.01.2012
11.	मधुकर असनानी	भारतीय विदेश सेवा का कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड	भारतीय विदेश सेवा का ग्रेड-IV	02.01.2012

1	2	3	4	5
12.	जितेन्द्र कुमार शर्मा	भारतीय विदेश सेवा का कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड	भारतीय विदेश सेवा का ग्रेड-IV	01.01.2012
13.	जे. एस. वरिआह	भारतीय विदेश सेवा का कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड	भारतीय विदेश सेवा का ग्रेड-IV	02.01.2012
14.	राकेश कुमार	भारतीय विदेश सेवा का कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड	भारतीय विदेश सेवा का ग्रेड-IV	02.01.2012
15.	वी. के. वी. रमन	भारतीय विदेश सेवा का कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड	भारतीय विदेश सेवा का ग्रेड-IV	02.01.2012
16.	फ्रांसिस जेवियर खाखा	भारतीय विदेश सेवा का कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड	भारतीय विदेश सेवा का ग्रेड-IV	01.01.2012
17.	आशुतोष के. अग्रवाल	भारतीय विदेश सेवा का कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड	भारतीय विदेश सेवा का ग्रेड-IV	01.01.2012

2. भारतीय विदेश सेवा के ग्रेड-IV में प्रोन्नत होने पर, उपर्युक्त अधिकारियों ने अपने नाम के आगे दर्शायी गई तिथि के पूर्वाह्न को भारतीय विदेश सेवा के कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड में अपना पदभार त्याग दिया तथा उसी तारीख को पूर्वाह्न से भारतीय विदेश सेवा के ग्रेड-IV में अपना कार्यभार ग्रहण कर लिया है।

कार्तिक पांडे, अवर सचिव (एफएसपी)

सं. क्यू/पीए-1/26/2012--राष्ट्रपति वर्तमान में भारतीय विदेश सेवा (आईएफएस) के ग्रेड-III के निम्नलिखित अधिकारी को उनके नाम के आगे दर्शायी गई तारीख से इसी सेवा के ग्रेड-II में स्थापानन रूप से नियुक्त करती हैं :-

नाम	वर्तमान ग्रेड	पदोन्नति के बाद ग्रेड	पदोन्नति की तारीख
श्री एन. पार्थसारथी	भारतीय विदेश सेवा का ग्रेड-III	भारतीय विदेश सेवा का ग्रेड-II	01.03.2012

2. भारतीय विदेश सेवा के ग्रेड-II में प्रोन्नत होने पर, उपर्युक्त अधिकारी ने 01 मार्च 2012 के पूर्वाह्न में भारतीय विदेश सेवा के ग्रेड-III के पद का अधित्याग कर दिया और उसी तारीख के पूर्वाह्न से भारतीय विदेश सेवा के ग्रेड-II के पद का कार्यभार संभाल लिया।

कार्तिक पांडे, अवर सचिव (एफएसपी)

नई दिल्ली, दिनांक 26 दिसम्बर 2011

सं. क्यू/पीए-1/56/2011--राष्ट्रपति मेडागास्कर (अंतानानारिवो) में भारत के राजदूत तथा भारतीय विदेश सेवा के ग्रेड-III के अधिकारी

श्री आजाद सिंह तूर की दिनांक 31.10.2011 (अपराह्न) को अधिवर्षिता के बाद उन्हें दिनांक 01.11.2011 से 30.04.2012 तक छह माह की अवधि के लिए भारतीय विदेश सेवा के ग्रेड-III में भारत के राजदूत, मेडागास्कर (अंतानानारिवो) के रूप में पुनः नियुक्त करती हैं।

सुजा के. मेनन, अवर सचिव (एफ.एस.पी.-II)

वित्त मंत्रालय  
(राजस्व विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 3 जुलाई 2012

सं. 57 (फा.सं. ए-38014/3/2012-प्रशा.-I)--राजस्व विभाग में अनुभाग अधिकारी (तदर्थ) के रूप में तैनात केन्द्रीय सचिवालय सेवा के अधिकारी श्री एच. के. चौधरी अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने पर दिनांक 30.06.2012 (अपराह्न) को सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त हो गए हैं।

वी. श्रीकुमार, अवर सचिव

सं. 58 (फा.सं. ए-38014/4/2012-प्रशा.-I)--राजस्व विभाग में अनुभाग अधिकारी के रूप में तैनात केन्द्रीय सचिवालय सेवा के अधिकारी श्री सत्य प्रकाश तिवारी अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने पर दिनांक 30.06.2012 (अपराह्न) को सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त हो गए हैं।

वी. श्रीकुमार, अवर सचिव

दिनांक 11 जुलाई 2012

सं. 59 (फा.सं. ए-19012/1/2010-प्रशा.-I)--केन्द्रीय सचिवालय सेवा (सीएसएस) की वर्ष 2012 के लिए वरिष्ठ चयन श्रेणी (निदेशक) चयन सूची में उनके नाम को शामिल किए जाने के परिणामस्वरूप और कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 05 जुलाई, 2012 के कार्यालय ज्ञापन सं. 3/1/2012-सीएस-I(डी)(पी-II) के अनुसरण में, राष्ट्रपति, केन्द्रीय सचिवालय सेवा के संबंधित अधिकारी और वर्तमान में इस विभाग में उप सचिव के रूप में कार्यरत श्री ए. के. चतुर्वेदी को दिनांक 06.07.2012 (पूर्वाह्न) से और अगले आदेशों तक नियमित आधार पर इस विभाग में निदेशक के रूप में नियुक्त करते हैं।

वी. श्रीकुमार, अवर सचिव

दिनांक 12 जुलाई 2012

सं. 60 (फा.सं. ए-19013/13/2012-प्रशा.-I)--भारत के राष्ट्रपति, श्री एस. एल. अनुरागी, भारतीय राजस्व सेवा (आयकर) को दिनांक 02.07.2012 (पूर्वाह्न) से तीन वर्ष की अवधि के लिए अथवा अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, राजस्व विभाग के केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड में अवर सचिव के रूप में नियुक्त करते हैं।

वी. श्रीकुमार, अवर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 16 जुलाई 2012

सं. ए-35011/3/2011-एडी.ईडी.--भारत के राष्ट्रपति, श्री संजीव भटनागर, भारतीय राजस्व सेवा (केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क) को प्रतिनियुक्ति आधार पर 15,600--39,100/- रुपए + 7,600/- रुपए ग्रेड वेतन के वेतन बैंड-3 में, दिनांक 08.05.2012 (अपराह्न) से 24.05.2013 तक अर्थात् 4 वर्ष की शेष अवधि के लिए अथवा अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, प्रवर्तन निदेशालय, जयपुर में संयुक्त निदेशक, प्रवर्तन के रूप में नियुक्त करते हैं।

आर. एन. सिंह, अवर सचिव

दिनांक 17 जुलाई 2012

सं. ए-35011/6/2011-एडी.ईडी.--भारत के राष्ट्रपति, श्री डी. के. गुप्ता, भारतीय राजस्व सेवा (आयकर) को प्रतिनियुक्ति आधार पर 37,400--67,000/- रुपए + 8,700/- रुपए ग्रेड वेतन के वेतन बैंड-4 में, दिनांक 30.05.2012 (पूर्वाह्न) से 4 वर्ष की अवधि के लिए अथवा अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, प्रवर्तन निदेशालय, नई दिल्ली में अपर निदेशक, प्रवर्तन के रूप में नियुक्त करते हैं।

आर. एन. सिंह, अवर सचिव

सं. ए-35011/6/2011-एडी.ईडी.--भारत के राष्ट्रपति, श्री अनुज गोगिया, भारतीय राजस्व सेवा (केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क) को प्रतिनियुक्ति आधार पर 37,400--67,000/- रुपए + 8,700/- रुपए ग्रेड वेतन के वेतन बैंड-4 में, दिनांक 19.06.2012 (अपराह्न) से 17.06.2013 तक अर्थात् 4 वर्ष की प्रतिनियुक्ति की शेष अवधि के लिए अथवा अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, प्रवर्तन निदेशालय, मुम्बई में अपर निदेशक, प्रवर्तन के रूप में नियुक्त करते हैं।

आर. एन. सिंह, अवर सचिव

केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड

नई दिल्ली, दिनांक 7 मई 2012

सं. 2012 का 8 (फा.सं. ए-39011/1/2010-प्रशा.-IVक--राष्ट्रपति दिनांक 16.12.2011 से भारतीय राजस्व सेवा से श्री राहुल नाथ का तकनीकी त्यागपत्र स्वीकार करते हैं।

आनन्द उपाध्याय, अवर सचिव

वित्तीय सेवाएं विभाग

नई दिल्ली, दिनांक 9 जुलाई 2012

सं. 8/6/2011-डीआरटी--बैंकों और वित्तीय संस्थाओं के शोध ऋणों की वसूली अधिनियम, 1993 की धारा 8 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, एतद्द्वारा, न्यायमूर्ति एस. एन. एच. जैदी, अध्यक्ष, ऋण वसूली अपीलीय अधिकरण, दिल्ली को



तत्काल प्रभाव से, जब तक न्यायमूर्ति श्री आर. एम. चौहान, अध्यक्ष, डीआरएटी, मुम्बई अपना कार्यभार ग्रहण नहीं करते, डीआरएटी, मुम्बई के कार्यों का भी निर्वहन करने के लिए प्राधिकृत करती है।

राजीव शर्मा, अवर सचिव

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय  
(लोक उद्यम विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 24 जुलाई 2012

सं. ए-42011/2/2012-प्रशासन--दिनांक 04.06.2012 के राजभाषा विभाग के आदेश संख्या 5/16/2012-रा.भा. (सेवा) के अनुसरण में, राष्ट्रपति, श्रीमती सुरेखा बिन्दा को पीबी-3 में रु. 15,600--39,100/- के वेतनमान में रु. 6,600/- ग्रेड वेतन पर लोक उद्यम विभाग, भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में दिनांक 09.07.2012 के पूर्वाह्न से उप निदेशक (तदर्थ) के पद पर नियुक्त करते हैं।

राजेन्द्र कुमार, निदेशक

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय  
(खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 19 जुलाई 2012

सं. ए-12022/1/2009-स्था.-1--केन्द्रीय सचिवालय सेवा की वर्ष 2012 की वरिष्ठ चयन ग्रेड (निदेशक) चयन सूची में नाम शामिल किए जाने के परिणामस्वरूप राष्ट्रपति द्वारा श्री पी. शोखंडा, उप सचिव को खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग में वेतन बैंड (पीबी-4) 37,400--67,000/- रुपए + 8,700/- रुपए के ग्रेड वेतन में दिनांक 06 जुलाई, 2012 की पूर्वाह्न से अगले आदेश होने तक निदेशक के पद पर नियुक्त किया जाता है।

अरुण कुमार सिंह, अवर सचिव

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय  
(विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग)

नई दिल्ली-110016, दिनांक 18 जुलाई 2012

सं. एस.एम./01/04/2011--राष्ट्रपति, निम्नलिखित अधिकारी को उनके नाम के सामने दी गई तिथि से एवं अगले आदेशों तक रुपए 15,600--39,100/- ग्रेड वेतन रुपए 5,400/- के वेतन बैंड पीबी-3 के समूह 'क' सेवा में भारतीय सर्वेक्षक विभाग में उप अधीक्षक सर्वेक्षक के पद पर सहर्ष नियुक्त करते हैं :-

नाम	नियुक्ति की तिथि
श्री भरत कुम्भार	30.08.2011 (पूर्वाह्न)

एन. के. ग्यागी, निदेशक, एस.एम.पी.

सं. एस.एम./01/10/2012--राष्ट्रपति, भारतीय सर्वेक्षण विभाग में कार्य कर रहे श्री ईश्वर सिंह दहिया, सहायक भण्डार अधिकारी (समूह 'ख')

को उसी संगठन में उप भण्डार अधिकारी (समूह 'क') के पद पर पे बैंड-3 (रु. 15,600--39,100/-) + ग्रेड वेतन रु. 5,400/- में दिनांक 29.06.2012 से आगामी आदेशों तक नियुक्त करते हैं।

एन. के. ग्यागी, निदेशक

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय

नई दिल्ली-110003, दिनांक 5 जुलाई 2012

सं. 18012/4/2008-आईएफएस-II--भारतीय वन सेवा (परिवीक्षा) संशोधन नियम, 2007 के नियम 2 के तहत संशोधित भारतीय वन सेवा (परिवीक्षा) नियम, 1968 के नियम 3(2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, एतद्वारा, बिहार संवर्ग के निम्नलिखित आईएफएस अधिकारी को, उनके नाम के सामने दर्शाई गई तारीख से, भारतीय वन सेवा में स्थायी करती है :-

नाम	नियुक्ति की तारीख	स्थायीकरण की तारीख
श्री आलोक कुमार	18.08.2007	18.08.2009

एस. एस. बधावन, निदेशक

दिनांक 11 जुलाई 2012

सं. 17013/05/2011-आईएफएस-II--राष्ट्रपति, भारतीय वन सेवा (प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति) विनियम, 1966 के विनियम 9 के उप-विनियम (1) के साथ पठित भारतीय वन सेवा (भर्ती) नियम, 1966 के नियम 8 के उप-नियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए वर्ष 2010 की चयन सूची के आधार पर त्रिपुरा राज्य वन सेवा के निम्नलिखित अधिकारियों को भारतीय वन सेवा में तत्काल प्रभाव से नियुक्त करती हैं और उन्हें भारतीय वन सेवा (संवर्ग) नियम, 1966 के नियम 5 के उप-नियम (1) के अंतर्गत भारतीय वन सेवा के मणिपुर-त्रिपुरा संयुक्त संवर्ग का त्रिपुरा सेगमेंट आवंटित करती हैं :-

क्र. सं.	नाम	जन्म तिथि
1.	श्री अजित कुमार भौमिक	07.12.1956
2.	श्री गौतम देबबर्मा	10.01.1962

एस. एस. बधावन, निदेशक

नई दिल्ली-110003, दिनांक 1 जून 2012

सं. एफ.ए.-38011/06/2012-पी-II--अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने के परिणामस्वरूप श्रीमती नीलम तलवार, निजी सचिव, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, 31 मई, 2012 के अपराह्न से सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त हो गई हैं।

एम. के. राय, अवर सचिव

सं. एफ.ए.-38011/05/2012-पी-II--अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने के परिणामस्वरूप श्री पवन कुमार अग्रवाल, उप सचिव, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, 31 मई, 2012 के अपराह्न से सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त हो गए हैं।

एम. के. राय, अवर सचिव

दिनांक 11 जुलाई 2012

सं. ए-19011/03/2009-पी. II(.)--कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 5 जुलाई, 2012 के कार्यालय आदेश सं. 3/1/2012-सीएस. I(घ) (खण्ड-II) द्वारा केन्द्रीय सचिवालय सेवा की वर्ष 2012 की वरिष्ठ चयन ग्रेड (निदेशक) चयन सूची में श्री आलोक अग्रवाल (सीएसएल सं. 3776क) का नाम शामिल किये जाने के परिणामस्वरूप, राष्ट्रपति उन्हें दिनांक 6 जुलाई, 2012 के पूर्वाह्न से वेतन बैंड-4 (37,400--67,000/- रु.) में ग्रेड वेतन 8,700/- रु. में पर्यावरण एवं वन मंत्रालय में निदेशक के पद पर नियुक्त करते हैं।

एम. के. राय, अवर सचिव

नई दिल्ली-110003, दिनांक 20 जुलाई 2012

सं. ए-32012/01/2005-पी.II(.)--कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 4 अक्टूबर, 2011 के कार्यालय ज्ञापन सं. 6/5/2011-सीएस. I(एस) और तदन्तर दिनांक 31 जनवरी, 2012 के कार्यालय ज्ञापन सं. 6/9/2010-सीएस.I(एस) के तहत दिये गये उनके स्पष्टीकरण के अनुसरण में राष्ट्रपति, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय में सीएसएस संवर्ग के सहायक श्री कुमार राजीव रंजन को दिनांक 31.12.2012 की अवधि तक अथवा अगले आदेशों तक अथवा नियमित अनुभाग अधिकारी उपलब्ध होने तक, इनमें से जो भी पहले हो, 19 जुलाई, 2012 से पर्यावरण एवं वन मंत्रालय में 4,800/- रु. के ग्रेड वेतन सहित पे-बैंड-2 (9,300--34,800/- रु.) में तदर्थ आधार पर सीएसएस के अनुभाग अधिकारी के पद पर सहर्ष नियुक्त करती हैं :--

2. तदर्थ पदोन्नति/नियुक्ति निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगी :--

- (i) तदर्थ नियुक्ति से संबंधित अधिकारी को ग्रेड में अनिश्चित समय तक बने रहने या नियमित नियुक्ति के लिए अनुभाग अधिकारियों की चयन सूची में शामिल होने या केन्द्रीय सचिवालय सेवा के अनुभाग अधिकारी ग्रेड में वरिष्ठता का दावा करने का अधिकार नहीं होगा।
- (ii) तदर्थ नियुक्ति, अनुभाग अधिकारी ग्रेड में वरिष्ठता कोट अथवा सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा (एलडीसीई) के माध्यम से नियमित अभ्यर्थी उपलब्ध होने तक जारी रहेगी। यदि तदर्थ आधार पर नियुक्त संबंधित अधिकारी नियमित नियुक्ति के लिए इन दोनों श्रेणियों में से किसी में भी अर्हत नहीं होते हैं तो उन्हें उस तिथि से सहायक के ग्रेड में प्रत्यावर्तित कर दिया जाएगा जिस तिथि को वे (नियुमित अनुभाग अधिकारी) कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग

द्वारा उनको आबंटित की गई अपनी-अपनी संवर्ग इकाईयों में कार्यभार ग्रहण करेंगे।

एम. एल. वाधवानी, अवर सचिव

नई दिल्ली-110003, दिनांक 24 जुलाई 2012

सं. 8-17/2012-रा.प्रा.वि.स.(एम)--राष्ट्रपति, द्वारा श्री मोहम्मद युनूस की नियुक्ति वैज्ञानिक-सी. (अस्थायी रूप से) के पद पर पे बैंड-3 में रु. 15,600-39,100/- + रु.6,600/- ग्रेड पे के वेतनमान में राष्ट्रीय प्राकृतिक विज्ञान संग्रहालय, नई दिल्ली में दिनांक 11 मई, 2012 (पूर्वाह्न) से आगामी आदेश जारी होने तक की जाती है।

मदन मोहन पाण्डेय, अवर सचिव

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

नई दिल्ली-110011, दिनांक 20 जुलाई 2012

सं. ए-12025/157/2007-सी एच एस-I--राष्ट्रपति, संघ लोक सेवा आयोग की सिफारिशों पर डॉ. अवधेश कुमार यादव को दिनांक 2 सितम्बर, 2009 के पूर्वाह्न से अगले आदेशों तक केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के चिकित्सा अधिकारी ग्रेड में पीबी-3 (15,600-39,100/- + ग्रेड वेतन 5,400/-रुपये) के वेतनमान में अस्थायी तौर पर नियुक्त करती हैं। डॉ. अवधेश कुमार यादव की तैनाती राष्ट्रीय संचारी रोग संस्थान, वाराणसी के अधीन चिकित्सा अधिकारी के रूप में की जाती है। वे दो वर्षों तक परिवीक्षा पर रहेंगे।

एम. के. शरवर, अवर सचिव

सं. ए-12025/100/2010-सी एच एस-I--राष्ट्रपति, संघ लोक सेवा आयोग की सिफारिशों पर डॉ. हेमंत बंसल को दिनांक 17 जनवरी, 2012 के पूर्वाह्न से अगले आदेशों तक केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के चिकित्सा अधिकारी ग्रेड में पीबी-3 (रु. 15,600-39,100/- + ग्रेड वेतन 5,400/-रुपये) के वेतनमान में अस्थायी तौर पर नियुक्त करती हैं। डॉ. हेमंत बंसल की तैनाती केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना, मेरठ के अधीन चिकित्सा अधिकारी के रूप में की जाती है। वे दो वर्षों तक परिवीक्षा पर रहेंगे।

एम. के. शरवर, अवर सचिव

सं. ए-12025/261/2010-सी एच एस-I--राष्ट्रपति, संघ लोक सेवा आयोग की सिफारिशों पर डॉ. कल्पना वर्मा को दिनांक 1 सितम्बर, 2008 के पूर्वाह्न से अगले आदेशों तक केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के चिकित्सा अधिकारी ग्रेड में पीबी-3 (रु. 15,600-39,100/- + ग्रेड वेतन 5,400/-रुपये) के वेतनमान में अस्थायी तौर पर नियुक्त करती हैं। डॉ. कल्पना वर्मा की तैनाती केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना, दिल्ली के अधीन चिकित्सा अधिकारी के रूप में की जाती है। वे दो वर्षों तक परिवीक्षा पर रहेंगी।

एम. के. शरवर, अवर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 24 जुलाई 2012

संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय  
(दूरसंचार विभाग)

सं. ए-31013/1/2012-सी एच एस-V--राष्ट्रपति, डॉ. डी. एन. मिश्रा, सहायक आचार्य, यक्ष्मा एवं वक्ष रोग, को दिनांक 14.12.2002 से केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के अध्यापन विशेषज्ञ उप-संवर्ग के सहायक आचार्य के पद पर स्थाई आधार पर नियुक्त करते हैं।

अमरजीत सिंह, अवर सचिव

नई दिल्ली-110001, दिनांक 3 जुलाई 2012

सं. ए-32013/4/2010-प्रशासन-I--दिनांक 29.06.2012, 26.09.2011 और 11.01.2012 की समसंख्यक अधिसूचना के अनुक्रम में, राष्ट्रपति, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 29.05.2012 के आदेश सं. 5/7/2011-सीएस-I(यू) के अनुसार निम्नलिखित अवर सचिवों की तदर्थ नियुक्ति को दिनांक 31.05.2013 तक अथवा नियमित आधार पर पदों के भरे जाने तक, इनमें से जो भी पहले हो, आगे बढ़ाते हैं:--

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

नई दिल्ली, दिनांक 6 जुलाई 2012

सं. ए-19014/1/2009-स्थापना-I--राष्ट्रपति, इस विभाग की दिनांक 30.06.2009 की अधिसूचना सं. ए-11013/3/2009-स्थापना-I के क्रम में और कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 22.06.2012 के कार्यालय ज्ञापन सं. 5/2/2009-ईओ (एमएम-I) के अनुसरण में श्रीमती एम. सुधादेवी, भा. प्र. से. (हिमाचल प्रदेश : 2003) को 1 जुलाई, 2012 के पूर्वाह्न से दिनांक 17.06.2014 तक अथवा जब तक वे मंत्री जी के निजी सचिव के रूप में कार्य करना छोड़ नहीं देती अथवा आगे के आदेशों तक, जो भी पहले हो, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में उप सचिव के स्तर पर स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री (श्री एस. गांधी सेल्वन) के निजी सचिव के रूप में नियुक्त करती हैं।

अनिल कुमार, अवर सचिव

दिनांक 17 जुलाई 2012

सं. ए-32013/03/10-स्थापना-I--वर्ष 2012 की केन्द्रीय सचिवालय सेवा वरिष्ठ चयन ग्रेड (निदेशक) चयन सूची में केन्द्रीय सचिवालय सेवा के चयन ग्रेड (उप सचिव) के अधिकारी, श्री बक्शी राम (सीएसएल सं. 4355) का नाम शामिल होने के परिणामस्वरूप तथा कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 5 जुलाई, 2012 के आदेश सं. 3/1/2012-सीएस.I(डी)(पी-II) के अनुसरण में, उन्हें 05.07.2012 के पूर्वाह्न से स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग में एतद्वारा सीएसएस के वरिष्ठ चयन ग्रेड (निदेशक) में नियमित आधार पर नियुक्त किया जाता है।

अनिल कुमार, अवर सचिव

जनजातीय कार्य मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 11 जुलाई 2012

सं. 19011/16/2010-स्थापना--कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 05.07.2012 के आदेश सं. 3/1/2012-सीएस.I(डी) पी(II) द्वारा वर्ष 2012 के लिए सीएसएस की वरिष्ठ चयन ग्रेड (निदेशक) प्रवर सूची में इनका नाम शामिल होने के परिणामस्वरूप, राष्ट्रपति श्रीमती सुनीता, जो इस समय जनजातीय कार्य मंत्रालय में उप सचिव के रूप में कार्यरत हैं, को 09.07.2012 के पूर्वाह्न से जनजातीय कार्य मंत्रालय में निदेशक के पद पर पदोन्नत और नियुक्त करते हैं।

एन. रामाकृष्णन, अवर सचिव

क्र. सं.	नाम
1.	श्री उदय नारायण सिन्हा
2.	श्री कर्मा वांगडी शेर्पा
3.	श्री रमा मारवाह
4.	श्री विजय कुमार
5.	श्री देव नाथ शाह
6.	सुश्री नेहा सिंह
7.	श्री अजय कुमार वीआर
8.	श्री आतिश कमल श्रीवास्तव
9.	श्री परमजीत चड्ढा
10.	श्री रमेश चंद आहूजा
11.	श्री राम दत्त
12.	श्री एच. चिनज़ासन

2. यथाउपरोक्त, अधिकारियों की नियुक्ति निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगी :--

- (i) उक्त तदर्थ पदोन्नति उन्हें उक्त ग्रेड में अनिश्चित रूप से पद पर बने रहने अथवा नियमित नियुक्ति हेतु चयन सूची में शामिल किए जाने अथवा केन्द्रीय सचिवालय सेवा के ग्रेड I में वरिष्ठता का दावा करने का कोई अधिकार प्रदान नहीं करेगी।
- (ii) ये तदर्थ नियुक्तियां बिना कोई कारण बताए किसी भी समय समाप्त की जा सकती हैं।
- (iii) उक्त अधिकारियों, जिन्होंने केन्द्रीय सचिवालय सेवा के लिए प्रशिक्षण योजना संवर्ग में अनिवार्य स्तर का 'घ' प्रशिक्षण प्राप्त नहीं किया है, उन्हें छः माह की अवधि के भीतर उपरोक्त प्रशिक्षण प्राप्त करना होगा।
- (iv) अधिकारियों की यह तदर्थ पदोन्नति सीएटी, नई दिल्ली के सामने लंबित श्री पी. आर. शर्मा बनाम भारत संघ शीर्षक वाले ओए सं. 3294/2009 और श्री पी. एस. भण्डारी

बनाम भारत संघ एवं अन्य शीर्षक वाले ओए सं. 2674/2009 के अंतिम परिणाम के अध्यधीन होगी।

निर्मला देव, अवर सचिव

नई दिल्ली-110001, दिनांक 17 जुलाई 2012

सं. 32014/1/2008-प्रशा. I--राष्ट्रपति, दूरसंचार विभाग के केंद्रीय सचिवालय सेवा संवर्ग के निम्नलिखित सहायकों को 01.07.2012 से 31.12.2012 तक अथवा केंद्रीय सचिवालय सेवा संवर्ग के नियमित अनुभाग अधिकारियों के उपलब्ध होने तक या अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, दूरसंचार विभाग के संवर्ग में वेतन बैंड 2 के वेतनमान 9,300--34,800/- रु. + 4,800/- रु. (ग्रेड वेतन) में तदर्थ आधार पर स्थानापन्न रूप में केंद्रीय सचिवालय सेवा संवर्ग के अनुभाग अधिकारी बने रहने की अनुमति प्रदान करते हैं :-

क्र. सं.	नाम	जन्म तिथि	श्रेणी	केंद्रीय चयन सूची/वर्ष
	सर्वश्री			
1. 827	वेद प्रकाश-I*	09.07.1952	अ.जा.	1995
2. 828	श्रीमती गुरविन्दर कौर	29.12.1952	सामान्य	1996
3. 829	बी. के. शर्मा	08.10.1953	सामान्य	1993
4. 830	श्रीमती सुनीता शर्मा	29.10.1953	सामान्य	1997
5. 831	श्रीमती सुधा शर्मा	31.01.1954	सामान्य	1994
6. 832	कु. एन. सी. इक्का	06.03.1954	अ.ज.जा.	1997
7. 833	हरमिन्दर सिंह	20.09.1954	सामान्य	1997
8. 834	वेद प्रकाश-II	01.10.1954	अ.जा.	2001
9. 835	श्रीमती अनीता उत्तरेजा	14.01.1955	सामान्य	1999
10. 836	श्रीमती रोया मखीजा	02.01.1956	सामान्य	1998
11. 837	एन.के. तोमर	30.06.1956	सामान्य	2001
12. 838	श्रीमती कान्ता कुमारी	07.11.1956	अ.जा.	1999
13. 839	एस. पी. गांगुली	21.04.1957	सामान्य	1999
14. 840	सुरेन्द्र कुमार	10.11.1957	सामान्य	1999
15. 841	एम. एल. मीणा	30.09.1960	अ.ज.जा.	2001
16. 842	टी. सी. मीणा	15.01.1964	अ.ज.जा.	1996
17. 843	राजीव लोचन	20.08.1973	सामान्य	1999

\*श्री वेद प्रकाश-I दिनांक 31.07.2012 को अधिवर्षिता की आयु पूरी होने के कारण सेवा निवृत्त हो जाएंगे।

2. उपर्युक्त अधिकारियों के विरुद्ध सतर्कता संबंधी कोई मामला नहीं है।

3. अनुभाग अधिकारी के ग्रेड में तदर्थ पदोन्नतियां/नियुक्तियां निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन होगी :-

(क) तदर्थ नियुक्ति से इस ग्रेड में अनिश्चित काल तक बने रहने अथवा नियमित नियुक्ति के लिए चयन सूची में नाम शामिल करने अथवा केंद्रीय सचिवालय सेवा के अनुभाग अधिकारी ग्रेड में वरिष्ठता का दावा करने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं होगा।

(ख) तदर्थ व्यवस्था तब तक जारी रहेगी जब तक वरिष्ठता कोट और/अथवा सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा (एलडीसीई) के माध्यम से अनुभाग अधिकारी ग्रेड में नियमित अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं हो जाते। तदर्थ आधार पर नियुक्त व्यक्ति इन दोनों श्रेणियों में से किसी भी श्रेणी में नियमित नियुक्ति के लिए अर्हता प्राप्त न करने पर नियमित अधिकारी के उपलब्ध होने पर सहायक ग्रेड में उस दिनांक को प्रत्यावर्तित कर दिया जाएगा जिस दिनांक को नियमित अनुभाग अधिकारी कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा आवंटित अपने संबंधित संवर्ग में कार्यभार ग्रहण कर लेते हैं।

विमल, अवर सचिव

सूचना प्रौद्योगिकी विभाग  
राष्ट्रीय सूचना-विज्ञान केन्द्र

नई दिल्ली-110003, दिनांक 24 जुलाई 2012

सं. 6305/एनआईसी/2012-प्रशा. II--महानिदेशक, रासूवि केंद्र एतद्वारा श्री प्रतीक गुप्ता, (कर्मचारी कोड सं. 6305) का रासूवि केंद्र-संघ राज्य क्षेत्र एकक, चंडीगढ़ में वैज्ञानिक अधिकारी/इंजीनियर-ग्रेड एस.बी. के पद से त्याग पत्र दिनांक 28.05.2012 की अपराह्न से स्वीकार कर लिया है और उन्हें उसी दिन से कार्यमुक्त किया जाता है।

सुभाष दत्ता, उप-निदेशक (प्रशा. II)

सं. 6319/एनआईसी/2012-प्रशा. II--महानिदेशक, रासूवि केंद्र एतद्वारा श्री विवेक गोयल, (कर्मचारी कोड सं. 6319) का रासूवि केंद्र-जिला केंद्र, रेवाड़ी, हरियाणा में वैज्ञानिक अधिकारी/इंजीनियर-ग्रेड एस.बी. के पद से त्याग पत्र दिनांक 11.08.2012 की अपराह्न से स्वीकार कर लिया है और उन्हें उसी दिन से कार्यमुक्त किया जाता है।

सुभाष दत्ता, उप-निदेशक (प्रशा. II)

मानकीकरण, परीक्षण एवं गुणवत्ता प्रमाणन निदेशालय

नई दिल्ली-110003, दिनांक 25 जुलाई 2012

सं. 2(3)/2012-पीए(टीए)--राष्ट्रपति महोदय ने श्री मनोहर सोढी, उपनिदेशक, मानकीकरण, परीक्षण तथा गुणवत्ता प्रमाणन निदेशालय, इलैक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग को संयुक्त निदेशक के पद

पर वेतन बैंड रु. 15,600--39,100+ रु. 7,600/- ग्रेड वेतन में दिनांक 03.07.2012 (पूर्वाह्न) से नियुक्त किया है।

एस. रामाकृष्णन, उप निदेशक

रेल मंत्रालय  
(रेलवे बोर्ड)

नई दिल्ली, दिनांक 11 जून 2012

सं. 2005/ई(जीआर)II/7/12 वॉल्यूम-II--राष्ट्रपति जी, सम्मिलित चिकित्सा सेवा परीक्षा, 2004 के आधार पर चयन किए गए निम्नलिखित डॉक्टरों को प्रत्येक के नाम के सामने दर्शाई गई तारीख से भारतीय रेल चिकित्सा सेवा में सहायक मंडल चिकित्सा अधिकारी के रूप में सहर्ष नियुक्त करते हैं:--

क्र. सं.	नाम	कार्यभार ग्रहण करने की तारीख
1	2	3
	(डाक्टर)	
1.	(सुश्री) विमला वी*	24.05.2006
2.	रैदीश बाबू के.	09.06.2006
3.	सुजीत कुमार	07.11.2006
4.	राहुल उपाध्याय*	24.05.2006
5.	कुमार रंगनाथन	07.06.2006
6.	आरिफ अली खान*	31.05.2006
7.	अखिलेश कुमार	08.11.2006
8.	शिव शंकर नायक	05.06.2006
9.	मो. मोअजुल हक	17.07.2006
10.	(सुश्री) अनुपमा	18.08.2006
11.	प्रकाश कुमार मिश्रा	16.06.2006
12.	ब्रिजेन्द्र कुमार मिश्रा	06.11.2006
13.	पंकज कुमार	13.06.2006
14.	(सुश्री) स्वेता सबरवाल*	07.11.2006
15.	पंकज गोयल*	26.12.2006
16.	राधा कांत पाण्डेय*	09.06.2006
17.	राजाराजन ई.पी.*	31.05.2006
18.	भूपेंद्र कुमार*	30.10.2006
19.	पुनीत गुप्ता	17.05.2006
20.	(सुश्री) शीना एस.	22.05.2006
21.	गोविंदा मंडल*	07.11.2006

1	2	3
22.	सिंह विजय कुमार दुर्गाप्रसाद	06.11.2006
23.	(सुश्री) रीना गर्ग	22.05.2006
24.	सत्य किंकर डे	07.11.2006
25.	लाडे नितिन राम चन्द्रा	09.06.2006
26.	दिनेश पाठक*	14.05.2007
27.	(सुश्री) श्रुती मेंडेकर	23.05.2006
28.	उमेश मौर्य	06.11.2006
29.	ज्योतिबाश साहु	01.09.2006 (अप.)
30.	पाटिल योगानंद विश्वासराव	19.05.2006
31.	मनिकांत कुमार*	07.11.2006
32.	कैलाश प्रसाद वर्मा	26.10.2006
33.	(सुश्री) अनिता सिंह	17.05.2006
34.	कुमार निर्भय	22.05.2006
35.	राज कुमार आर.	03.10.2006
36.	पंकज केशवराव पाटिल	02.06.2006
37.	दिब्येंदु सरकार	24.05.2006
38.	सुहास मुरलीधर गजभिये	09.06.2006
39.	विघनराज पाल	13.06.2006
40.	(सुश्री) मनीषा देका	05.06.2006
41.	(सुश्री) रितु सिंह	05.06.2006
42.	श्याम सोरेन	28.08.2006 (अप.)
43.	(सुश्री) अनुराधा चोपड़ा	29.11.2007
44.	(सुश्री) शुची सक्सेना	06.12.2007
45.	(सुश्री) शविका गुप्ता	24.01.2008
46.	(सुश्री) तनुश्री जोशी	04.02.2008
47.	(सुश्री) नीति गुप्ता	07.02.2008
48.	(सुश्री) डॉली परमार	05.08.2008
49.	मनजीष राठी	30.09.2008
50.	गौतम गोयल	22.10.2008
51.	कावड़े मनीष शामराव	31.07.2009

\*चरित्र एवं पूर्ववृत्त सत्यापित किए जाने के अध्यधीन अनंतिम रूप से अधिसूचित।

रश्मि चौधरी, कार्यपालक निदेशक/स्था. (राज. संवर्ग)

दिनांक 23 जुलाई 2012

सं. 2007/ई(जीआर)II/7/1 वॉल्यूम-II--राष्ट्रपति जी, भारतीय रेल चिकित्सा सेवा की सम्मिलित चिकित्सा सेवा परीक्षा, 2005 के आधार पर चयन किए गए निम्नलिखित डॉक्टरों को प्रत्येक के नाम के सामने दर्शाई गई तारीख से सहायक मंडल चिकित्सा अधिकारी के रूप में सहर्ष नियुक्त करते हैं:--

क्र. सं.	नाम	कार्यभार ग्रहण करने की तारीख
1	2	3
	(डाक्टर)	
1.	जसमीत सिंह आहलुवालिया	20.11.2007
2.	कपिल भोला	30.05.2007
3.	(सुश्री) अनुपमा वर्मा	18.06.2007
4.	(सुश्री) उर्मिल गुप्ता	29.05.2007
5.	सचित भोला	30.05.2007
6.	(सुश्री) बिशाखा डे	27.06.2007
7.	(सुश्री) शिखा अग्रवाल	13.06.2007
8.	भास्कर दास	28.06.2007
9.	चिरंजीव सरकार	22.06.2007
10.	सुधेंदु शेखर	23.11.2007
11.	(सुश्री) सुषमा सिंघल	23.11.2007
12.	अमित शेरसिया	18.03.2008
13.	(सुश्री) कृष्णा पेगू बैश्य*	08.10.2007
14.	रफी अहमद	01.11.2007
15.	कपिल देव सोनी	23.11.2007
16.	(सुश्री) आरती बापु फापे	08.06.2007
17.	संतोष कुमार यादव	27.07.2009
18.	योगेश	21.06.2007
19.	(सुश्री) मनीषा सिंह	11.06.2007
20.	(सुश्री) रतन प्रोभा (धनवर) टिग्गा	15.10.2007
21.	(सुश्री) मनदीप कौर	04.02.2010
22.	(सुश्री) चैताली बसु	14.08.2009
23.	कुलकर्णी अनुजा एस.	30.12.2008
24.	नीरज कुमार श्रीवास्तव	22.09.2008
25.	(सुश्री) नेहा जिंदल	14.09.2009
26.	लक्ष्मी डे	10.09.2009

1	2	3
27.	कुमार अभिषेक	24.02.2010
28.	(सुश्री) दिव्या यादव	25.08.2009
29.	(सुश्री) ऋचा गंगवार	03.03.2009
30.	वागमारे कैलाश सोपान	06.01.2009

\*चरित्र एवं पूर्ववृत्त सत्यापित किए जाने के अध्वधीन अनंतिम रूप से अधिसूचित।

रश्मि चौधरी, कार्यपालक निदेशक/स्था. (राज. संवर्ग)

नई दिल्ली, दिनांक 23 जुलाई 2012

सं. ई(ओ)-III-2012/आरएन/25--श्री सुरेन्द्र कुमार, एसएजी/आईआरएसई का रेल विकास निगम लिमिटेड में स्थाई समाहन होने के परिणामस्वरूप उन्होंने दिनांक 23.04.2012 (अपराह्न) से रेलवे सेवा से त्यागपत्र दे दिया है।

आर. सी जाट, सचिव  
(रेलवे बोर्ड)

सं. ई(ओ)-III-2012/आरएन/26--भारतीय रेल कार्मिक सेवा के वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड के अधिकारी श्री एन. के. जैन, (जन्म तिथि : 28.03.1962, डीआईटीएस : 15.02.1988) के एयर इंडिया लिमिटेड में स्थायी समाहन होने के परिणामस्वरूप रेल सेवा से उनके तकनीकी त्यागपत्र को 05.07.2012 से स्वीकार कर लिया गया है।

आर. सी. जाट, सचिव  
(रेलवे बोर्ड)

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 13 जुलाई 2012

सं. ए-12025/1/2012-ई-II--राष्ट्रपति, श्री देवेन्द्र चापेकर को सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, नई दिल्ली, में दिनांक 29.06.2012 (पूर्वाह्न) से तथा आगामी आदेशों तक वेतनमान रु. 15,600--39,100/- + 5,400/- ग्रेड पे में केन्द्रीय इंजीनियरिंग सेवा (सड़क) समूह 'क' के सहायक कार्यपालक अभियंता (सिविल) के पद पर नियुक्त करते हैं।

देव राज शर्मा, अवर सचिव

विद्युत मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 23 जुलाई 2012

सं. 17/2012 (फाईल सं. ए-32013/10/2012-प्रशा.-I)--राष्ट्रपति, विभागीय पदोन्नति समिति (समूह क) की सिफारिशों पर, केन्द्रीय विद्युत अभियांत्रिकी (समूह क) सेवा के वरिष्ठ समयमान ग्रेड में निम्नलिखित

अधिकारियों को अगले आदेशों के होने तक उनके नाम के सामने दर्शाई गई तिथियों से केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण में 15,600--39,100/- रुपये के वेतनमान में 6,600/- रुपये के ग्रेड वेतन सहित नियुक्त करते हैं :--

क्रम नाम सं.	नियुक्ति की तारीख
1. श्री अरुण कुमार पंवार	03.07.2012 (पूर्वाह्न)
2. श्रीमती पी. ई. कमला	03.07.2012 (पूर्वाह्न)
3. श्री अबसार अहमद	03.07.2012 (पूर्वाह्न)
4. श्री ओम कांत शुक्ला	03.07.2012 (पूर्वाह्न)
5. श्री मनोज कुमार दीवान	03.07.2012 (पूर्वाह्न)
6. श्री एल. सत्यनारायण	03.07.2012 (पूर्वाह्न)
7. श्री कमल खेमचंदिनी	03.07.2012 (पूर्वाह्न)
8. श्री आशीष गोयल	03.07.2012 (पूर्वाह्न)
9. श्री सोवरण सिंह बनोरिया	03.07.2012 (पूर्वाह्न)
मधुकर सूद, अवर सचिव	

जल संसाधन मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 19 जुलाई 2012

सं. 04/2012, फा. सं. 20/28/2003-प्रशा.(पार्ट)--राष्ट्रपति द्वारा श्री मोहन चरण चांद, उप-सचिव को वर्ष 2012 में केन्द्रीय सचिवालय सेवा (सीसीएस) के वरिष्ठ चयन ग्रेड (निदेशक) में शामिल करने के परिणामस्वरूप जल संसाधन मंत्रालय में 06.07.2012 (पूर्वाह्न) से व्यक्तिगत रूप से पीबी-4 में 37,400--67,000/- रुपये + 8,700/- रुपये (ग्रेड वेतन) में निदेशक के पद पर नियुक्त किया जाता है।

एल. पी. शर्मा, उप सचिव

सं. 05/2012, फा. सं. 20/28/2003-प्रशा.(पार्ट)--राष्ट्रपति द्वारा श्री राम स्वरूप, उप-सचिव को वर्ष 2012 में केन्द्रीय सचिवालय सेवा

(सीसीएस) के वरिष्ठ चयन ग्रेड (निदेशक) में शामिल करने के परिणामस्वरूप जल संसाधन मंत्रालय में 06.07.2012 (पूर्वाह्न) से व्यक्तिगत रूप से पीबी-4 में 37,400--67,000/- रुपये + 8,700/- रुपये (ग्रेड वेतन) में निदेशक के पद पर नियुक्त किया जाता है।

एल. पी. शर्मा, उप सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 24 जुलाई 2012

सं. 13/2012 (फाईल सं. 25/1(21)/2012-स्थापना एक)--संयुक्त इंजीनियरिंग सेवा परीक्षा-2010, के परिणामों के आधार पर राष्ट्रपति ने श्री विपिन कुमार सिंह को दिनांक 05.07.2012 (पूर्वाह्न) से केन्द्रीय जल आयोग में केन्द्रीय जल इंजीनियरिंग (ग्रुप 'क') के सहायक निदेशक/सहायक कार्यकारी इंजीनियर (सिविल/मैकेनिकल) के पद पर वेतन बैंड-3 में रु. 15,600--39,100/- तथा ग्रेड पे रु. 5,400/- के वेतनमान में कार्य करने के लिए नियुक्त किया है।

2. श्री विपिन कुमार सिंह कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से 2 वर्ष की अवधि के लिए परीक्षाधीन रहेंगे जिसे आवश्यक समझे जाने पर बढ़ाया जा सकता है।

नरेन्द्र सिंह, अवर सचिव

सं. 14/2012 (फाईल सं. 25/1(22)/2012-स्थापना एक)--संयुक्त इंजीनियरिंग सेवा परीक्षा-2010, के परिणामों के आधार पर राष्ट्रपति ने श्री विवेक कुमार वर्मा को दिनांक 01.06.2012 (अपराह्न) से केन्द्रीय जल आयोग में केन्द्रीय जल इंजीनियरिंग (ग्रुप 'क') के सहायक निदेशक/सहायक कार्यकारी इंजीनियर (सिविल/मैकेनिकल) के पद पर वेतन बैंड-3 में रु. 15,600--39,100/- तथा ग्रेड पे रु. 5,400/- के वेतनमान में कार्य करने के लिए नियुक्त किया है।

2. श्री विवेक कुमार वर्मा कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से 2 वर्ष की अवधि के लिए परीक्षाधीन रहेंगे जिसे आवश्यक समझे जाने पर बढ़ाया जा सकता है।

नरेन्द्र सिंह, अवर सचिव

## PRIME MINISTER'S OFFICE

New Delhi-110011, the 11th July 2012

No. A. 22012/2/2012-PME—The President is pleased to extend the tenure on Central Deputation of Shri L.K. Athee, IAS (KN:91), Joint Secretary in the Prime Minister's Office upto 12.08.2014.

R. MYTHILI, Under Secy.

## CABINET SECRETARIAT

New Delhi, the 13th June 2012

No. A-19015/01/2012-Ad-I—The President is pleased to appoint Shri Tilak Raj Arora, APPO (Chem) in the Directorate of Plant protection, Quarantine and Storage, Department of Agriculture & Cooperation as Technical Officer in the revised pay band PB-2 of Rs. 9,300—34,800/- + Grade Pay of Rs. 4,800/- in the National Authority, Chemical Weapons Convention, Cabinet Secretariat on deputation basis for a period of three years with effect from the afternoon of 13th June, 2012 or until further orders, whichever is earlier.

K. J. SIBICHAN, Under Secy.

## PLANNING COMMISSION

New Delhi, the 19th July 2012

No. A. 12025/2/2011-Adm.I—The President is pleased to appoint Dr. (Mrs.) Punam Srivastava, a regular Senior Research Officer (Project Appraisal), Planning Commission as Deputy Adviser (Backward Classes and Tribal Development) in the Planning Commission in the PB-3 of Rs. 15,600—39,100/- + Grade Pay of Rs. 7,600/- on promotion basis w.e.f. 04.07.2012 and until further orders.

S. MUKHERJEE, Director (Admn.I)

New Delhi, the 20th July 2012

No. A. 12025/11/2010-Adm.I—In continuation of Planning Commission notification of even number 18th November, 2011, the president is pleased to extend the term of adhoc appointment of Shri V.P. Garg as Deputy Adviser (Social Planning) for a further period of six months w.e.f. 23.2.2012 in PB-3 of Rs. 15,600—39,100/- + Grade Pay of Rs. 7,600/- or until further orders, whichever is earlier.

2. The other terms and conditions will remain the same as was mentioned in earlier Planning Commission Notification of even number dated 25th August 2010.

G. RAJEEV, Under Secy.

## MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS

New Delhi, the 3rd July 2012

No. 3(15)/1997-Admn.—In pursuance of DoPT's Communication No. 25/1/2012-EO(SM.1) dated 2nd July, 2012 the President is pleased to appoint Shri Desh Deepak Verma, IAS (UP:78), as Secretary, Ministry of Parliamentary Affairs, with effect from 02.07.2012 (AN).

RAMESHWAR PRASAD, Under Secy.

## MINISTRY OF LAW &amp; JUSTICE

## DEPARTMENT OF LEGAL AFFAIRS

New Delhi, the 16th July 2012

No. A-32013/02/2010--Admn.IV (LA)—Consequent upon transfer from Department of Posts vide Department of Personnel & Training O.M. No. 2/4/2011-CS-II(A) dated 04.05.2012 and joining the post, the President is pleased to take Shri V.K. Tondon, Sr. PPS on the strength of CSSS cadre of Department of Legal Affairs with effect from the forenoon of 12.06.2012 in PB-3 Rs. 15,600—39,100/- with Grade Pay of Rs. 7,600/-.

ASHA SOTA, Under Secy.

## MINISTRY OF HOME AFFAIRS

New Delhi, the 27 July 2012

No. I-18012/4/2012-IPS-I—In exercise of the powers conferred by Rule 3-A of the Indian Police Service (Probation) Rules, 1954, the President is pleased to confirm the following members of the Indian Police Service allocated to the Cadre of West Bengal in the Indian Police Service, with effect from the dates indicated against each:—

S.No.	Name	Date of Confirmation
	S/Shri	
1.	Swpan Kumar Maity, (SPS:98)	23.03.2006
2.	Debashish Ghosh, (SPS:98)	23.03.2006
3.	Dilip Bandyopadhyay, (SPS:98)	23.03.2005
4.	Biswarup Ghosh, (SPS:98)	23.03.2005
5.	Subhasish Chatterjee, (SPS:98)	23.03.2006

N. K. JOB, Under Secy.

## MINISTRY OF PERSONNEL, P.G. &amp; PENSIONS

## (DEPARTMENT OF PERSONNEL &amp; TRAINING)

New Delhi, the 16th July 2012

No. 20/G/1136-Ad.I—Consequent upon attaining the age of superannuation, Shri Ajai Saxena, Section Officer in the



Department of Personnel and Training retired from Government Service with effect from the afternoon of 30th June, 2012

PRIYA MAHADEVAN, Under Secy.

New Delhi, the 23rd July 2012

No. 23012/6/2012-AIS-III—Ms. Veena N.M., appointed to the Indian Administrative Service on the basis of the Civil Services Examination held in 2009 and borne on the cadre of Kerala, has been permitted to change her name from Ms. Veena N.M. to Ms. Veena N. Madhavan. She will accordingly be recognised as Ms. Veena N. Madhavan for all official purposes.

NAVNEET MISHRA, Under Secy.

# MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS

New Delhi, the 14th March 2011

No. Q/PA-1/09/2011—Late Shri R.S. Jassal, an officer of Grade I in the Indian Foreign Service, who was posted as Ambassador of India to Turkey, passed away while in service on 11. 03. 2011.

KARTIK PANDE, Under Secy. (FSP)

The 1st September 2011

No. Q/PA-1/39/2011—On attaining the age of superannuation, Shri Talmiz Ahmad, Ambassador of India, Riyadh, retired from Grade I of the Indian Foreign Service in the afternoon of August 31, 2011.

KARTIK PANDE, Under Secy. (FSP)

No. Q/PA-1/37/2011—On attaining the age of superannuation, Shri Sri Chand, Counsellor, Embassy of India, Muscat, retired from Grade IV of the Indian Foreign Service in the afternoon of August 31, 2011.

KARTIK PANDE, Under Secy. (FSP)

The 5th September 2011

No. Q/PA-I/40/2011—The President is pleased to appoint the undermentioned Officers, presently in Grade III of the Indian Foreign Service (IFS) to officiate in Grade II of the Service with effect from the date mentioned against their names.

Sl. No.	Name	Present Grade	Grade after Promotion	Date of Promotion
	Shri/Smt./Ms.			
1.	V. Pranatharthihran	Grade III of IFS	Grade II of IFS	01.09.2011
2.	R. Swaminathan	Grade III of IFS	Grade II of IFS	01.09.2011

2. On promotion to Grade II of IFS, the above mentioned officers relinquished charge of their posts in Grade III of IFS in the forenoon of the dates mentioned against their names and assumed charge of the posts in Grade II of IFS with effect from forenoon of the same date.

KARTIK PANDE, Under Secy. (FSP)

The 16th September 2011

No. Q/PA-I/41/11—The President is pleased to appoint Smt. Nirupama Rao, as Ambassador of India to the USA (Washington), in Grade I of the IFS for a period of two years from the date of assumption of charge of the post in the Mission i.e. 06.09.2011 (F.N.)

KARTIK PANDE, Under Secy. (FSP)

The 27th September 2011

No. Q/PA-I/42/2011—Consequent upon her marriage, Mrs. Manju, an Indian Foreign Service Officer of the batch/YOA 1996, shall hereafter be known as Mrs. Manju Seth.

KARTIK PANDE, Under Secy. (FSP)

The 3rd October 2011

No. Q/PA-I/43/2011—On attaining the age of superannuation, Shri Manbir Singh Secretary (ER), retired from Grade I of the Indian Foreign Service in the afternoon of 30th September 2011.

KARTIK PANDE, Under Secy. (FSP)

No. Q/PA-I/44/2011—On attaining the age of superannuation, Ms. Sarita Bali, Additional Secretary (R&R), retired from Grade II of the Indian Foreign Service in the afternoon of 30th September 2011.

KARTIK PANDE, Under Secy. (FSP)

No. Q/PA-I/45/2011—On attaining the age of superannuation, Shri S. Swaminathan, Ambassador of India to Iceland, retired from Grade III of the Indian Foreign Service in the afternoon of 30th September 2011.

KARTIK PANDE, Under Secy. (FSP)

No. Q/PA-I/46/2011—On attaining the age of superannuation, Shri Devendra Nath Srivastava, Ambassador of India to the Democratic Republic of Congo, retired from Grade III of the Indian Foreign Service in the afternoon of 30th September 2011.

KARTIK PANDE, Under Secy. (FSP)

The 14th October 2011

No. Q/PA-I/47/2011—The President is pleased to appoint the under-mentioned officers, presently in Grade III of the Indian Foreign Service (IFS) to officiate in Grade II of the Service with effect from the dates mentioned against their names :—

Sl. No.	Name	Present Grade	Grade after Promotion	Date of Promotion
Shri/Smt/Ms				
1.	Yogeshwar Varma	Grade III of IFS	Grade II of IFS	01.10.2011
2.	Smita Purushottam	Grade III of IFS	Grade II of IFS	03.10.2011

2. On promotion to Grade II of IFS, the above mentioned officers relinquished charge of their posts in Grade III of IFS in the forenoon of the dates mentioned against his names and assumed charge of the posts in Grade II of IFS with effect from forenoon of the same date.

KARTIK PANDE, Under Secy. (FSP)

The 1st November 2011

No. Q/PA-1/50/2011—On attaining the age of superannuation, Shri Azad Singh Toor, Ambassador of India, Antananarivo, retired from Grade III of Indian Foreign Service in the afternoon of October 31, 2011.

KARTIK PANDE, Under Secy. (FSP)

No. Q/PA-I/08/2011—Shri Asit Kumar Nag, High Commissioner of India to Republic of Seychelles (Victoria) who superannuated in Grade III of IFS on 31.01.2011 has completed his tenure of re-employment for six months from 01.02.2011 to 31.07.2011.

KARTIK PANDE, Under Secy. (FSP)

No. Q/PA-1/48/2011—On attaining the age of superannuation, Shri R.K. Puri, Counsellor, Embassy of India, Bratislava, retired from Grade IV of the Indian Foreign Service in the afternoon of October 31, 2011.

KARTIK PANDE, Under Secy. (FSP)

The 1st December 2011

No. Q/PA-1/52/2011—On attaining the age of superannuation, Shri S.R. Tayal, Ambassador of India, Seoul, retired from Grade I (in situ) of Indian Foreign Service in the afternoon of November 30, 2011.

KARTIK PANDE, Under Secy. (FSP)

No. Q/PA-1/53/2011—On attaining the age of superannuation, Shri K. Joseph Francis, Ambassador of India, Bamako, retired from Grade III of Indian Foreign Service in the afternoon of November 30, 2011.

KARTIK PANDE, Under Secy. (FSP)

The 5th December 2011

No. Q/PA-I/54/2011—The President is pleased to appoint the undermentioned officer, presently in Grade III of the Indian Foreign Service (IFS) to officiate in Grade II of the Service with effect from the date mentioned against his name :—

Name	Present Grade	Grade after Promotion	Date of Promotion
Sh./Smt./Ms.			
Aladiyan Manickam	Grade III of IFS	Grade II of IFS	01.12.2011

2. On promotion to Grade II of IFS, the above mentioned officer relinquished charge of his post in Grade III of IFS in the forenoon of 1st December, 2011 and assumed charge of the post in Grade II of IFS with effect from forenoon of 1st December, 2011.

KARTIK PANDE, Under Secy. (FSP)

The 2nd January 2012

No. Q/PA-1/02/2012—On attaining the age of superannuation, Shri Kocheril Velayudhan Bhagirath, High Commissioner of India to Tanzania, retired from Grade II of the Indian Foreign Service on the afternoon of December 31st, 2011.

KARTIK PANDE, Under Secy. (FSP)

No. Q/PA-1/04/2012—On attaining the age of superannuation, Shri D. Kishore Deb Verma, retired from Grade IV of the Indian Foreign Service in the afternoon of December 31, 2011.

KARTIK PANDE, Under Secy. (FSP)

No. Q/PA-1/03/2012—On attaining the age of superannuation, Smt. Homai Saha, retired from Grade II of the Indian Foreign Service in the afternoon of December 31st, 2011.

KARTIK PANDE, Under Secy. (FSP)

The 1st February 2012

No. Q/PA-I/06/2012—On attaining the age of superannuation, Shri Deepak Kishinchand Bhojwani,

Ambassador of India to Cuba (Havana) retired from Grade II of the Indian Foreign Service in the afternoon of 31.01.2012.

KARTIK PANDE, Under Secy. (FSP)

No. Q/PA-I/05/2012—On attaining the age of superannuation, Ms. Primrose Raikhan Sharma, Ambassador of India to Portugal (Lisbon) retired from Grade I of the Indian Foreign Service in the afternoon of 31.01.2012.

KARTIK PANDE, Under Secy. (FSP)

No. Q/PA-I/08/2012—On attaining the age of superannuation, Shri Anil K. Anand, Consul General of India, Consulate General of India, Edinburgh, retired from Grade III of the Indian Foreign Service in the afternoon of 31.01.2012.

KARTIK PANDE, Under Secy. (FSP)

No. Q/PA-I/07/2012—On attaining the age of superannuation, Shri Praveen Verma, Ambassador of India to Guatemala, retired from Grade III of the Indian Foreign Service in the afternoon of 31.01.2012.

KARTIK PANDE, Under Secy. (FSP)

The 2nd February 2012

No. Q/PA-I/09/2012—The President is pleased to appoint the undermentioned officers, presently in Grade III of the Indian Foreign Service (IFS) to officiate in Grade II of the Service with effect from the dates mentioned against their names :—

Sl. No.	Name	Present Grade	Grade after Promotion	Date of Promotion
Sh./Smt./Ms.				
1.	Nengcha Lhovum Mukhopadhaya	Grade III of IFS	Grade II of IFS	30.01.2012
2.	Rajinder Bhagat	Grade III of IFS	Grade II of IFS	02.01.2012

2. On promotion to Grade II of IFS, the above mentioned officers relinquished charge of their posts in Grade III of IFS in the forenoon of the dates mentioned against his names and assumed charge of the posts in Grade II of IFS with effect from forenoon of the same date.

KARTIK PANDE, Under Secy. (FSP)

The 23rd February 2012

No. Q/PA-I/10/2012—The President is pleased to appoint the undermentioned officers, presently in Grade III of the

Indian Foreign Service (IFS) to officiate in Grade II of the Service with effect from the dates mentioned against their names :—

Sl. No.	Name	Present Grade	Grade after Promotion	Date of Promotion
Sh./Smt./Ms.				
1.	Lal Thla Muana	Grade III of IFS	Grade II of IFS	09.02.2012
2.	Vijay Keshav Gokhale	Grade III of IFS	Grade II of IFS	09.02.2012

2. On promotion to Grade II of IFS, the above mentioned officers relinquished charge of their posts in Grade III of IFS in the forenoon of the dates mentioned against his names and assumed charge of the posts in Grade II of IFS with effect from forenoon of the same date.

KARTIK PANDE, Under Secy. (FSP)

The 1st March 2012

No. Q/PA-1/13/2012—On attaining the age of superannuation, Shri Yogendra Kumar, Ambassador of India, Manila, retired from Grade I (in situ) of the Indian Foreign Service in the afternoon of February 29, 2012.

KARTIK PANDE, Under Secy. (FSP)

No. Q/PA-1/11/2012—On attaining the age of superannuation, Shri Hardeep Singh Puri, Ambassador/Permanent Representative of India to the United Nations, PMI, New York, retired from Grade I of the Indian Foreign Service in the afternoon of February 29, 2012.

KARTIK PANDE, Under Secy. (FSP)

No. Q/PA-1/14/2012—On attaining the age of superannuation, Shri Subit Kumar Mandal, High Commissioner of India, Georgetown, retired from Grade I (in situ) of the Indian Foreign Service in the afternoon of February 29, 2012.

KARTIK PANDE, Under Secy. (FSP)

No. Q/PA-1/12/2012—Following superannuation of Shri Hardeep Singh Puri, an officer in Grade I of IFS and Ambassador/Permanent Representative of India to the United Nations, PMI, New York on 29th February, 2012 (AN), the President is pleased to re-employ Shri Hardeep Singh Puri, as Ambassador/Permanent Representative of India to the United Nations, PMI, New York in Grade I of IFS for a period of one year with effect from 01.03.2012 to 28.02.2013.

KARTIK PANDE, Under Secy. (FSP)

The 9th March 2012

No. Q/PA-I/15/2012—The President is pleased to appoint the undermentioned officers, presently in Grade II of the Indian Foreign Service (IFS) to officiate in Grade I of the Service with effect from the forenoon of 01st March 2012 :—

Sl. No.	Name	Present Grade	Grade after Promotion
1.	Sh. Dilip Sinha	Grade II of IFS	Grade I of IFS
2.	Sh. Suresh Kumar Goel	Grade II of IFS	Grade I of IFS

2. On promotion to Grade I of IFS, the officers relinquished charge of their post in Grade II of IFS in the forenoon of 01st March 2012 and assumed charge of their post in Grade I of the IFS, with effect from forenoon of the same date.

KARTIK PANDE, Under Secy. (FSP)

No. Q/PA-I/16/2012—The President is pleased to appoint the undermentioned officers, presently in Grade III of the Indian Foreign Service (IFS) to officiate in Grade II of the Service with effect from the forenoon of 01st March 2012 :—

Sl. No.	Name	Present Grade	Grade after Promotion
Sh./Smt./Ms.			
1.	Amarendra Khatua	Grade III of IFS	Grade II of IFS
2.	Banashri Bose Harrison	Grade III of IFS	Grade II of IFS

2. On promotion to Grade II of IFS, the above mentioned officers relinquished charge of their post in Grade III of IFS in the forenoon of 01st March 2012 and assumed charge of their post in Grade II of the IFS, with effect from forenoon of the same date.

KARTIK PANDE, Under Secy. (FSP)

The 16th March 2012

No. Q/PA-I/18/2012—The President is pleased to appoint the undermentioned officer(s), presently in Grade IV of the Indian Foreign Service (IFS) to officiate in Grade III of the Service with effect from the date(s) mentioned against his name(s) :—

Name	Present Grade	Grade after Promotion	Date of Promotion
Sh./Smt./Ms.			
Dr. Neena Malhotra	Grade IV of IFS	Grade III of IFS	09.12.2011

2. On promotion to Grade III of IFS, the above mentioned officer(s) relinquished charge of their post in Grade IV of IFS in the forenoon of the date mentioned against their

name(s) and assumed charge of their post in Grade IV of IFS with effect from forenoon of the same date.

KARTIK PANDE, Under Secy. (FSP)

No. Q/PA-I/17/2012—The President is pleased to appoint the undermentioned officer, presently in the Junior Administrative Grade (JAG) of the Indian Foreign Service (IFS) to officiate in Grade IV of the Service with effect from the date(s) mentioned against his name(s) :—

Name	Present Grade	Grade after Promotion	Date of Promotion
Sh. Jagdish Parshad Meena	JAG of IFS	Grade IV of IFS	16.03.2012

2. On promotion to Grade IV of IFS, the above mentioned officer(s) relinquished charge of their post(s) in JAG of IFS in the forenoon of the date(s) mentioned against their name(s) and assumed charge of their post(s) in Grade IV of IFS with effect from forenoon of the same date(s).

KARTIK PANDE, Under Secy. (FSP)

The 1st May 2012

No. Q/PA-1/19/2012—On attaining the age of superannuation, Shri K. P. Pillai, Counsellor, High Commission of India, Accra, retired from Grade IV of the Indian Foreign Service on the afternoon of April 30, 2012.

KARTIK PANDE, Under Secy. (FSP)

No. Q/PA-1/23/2011—On attaining the age of superannuation, Shri Ajay Swarup, Additional Secretary, retired from Grade II of the Indian Foreign Service on the afternoon of April 30, 2012.

KARTIK PANDE, Under Secy. (FSP)

No. Q/PA-1/20/2012—On attaining the age of superannuation, Shri Doraiswamy Ramamoorthy, Counsellor, Embassy of India, Dublin, retired from Grade IV of the Indian Foreign Service on the afternoon of April 30, 2012.

KARTIK PANDE, Under Secy. (FSP)

No. Q/PA-1/22/2012—On attaining the age of superannuation, Shri Achal Kumar Malhotra, Ambassador, Embassy of India, Yerevan, retired from Grade III of the Indian Foreign Service on the afternoon of April 30, 2012.

KARTIK PANDE, Under Secy. (FSP)

No. Q/PA-1/21/2012—On attaining the age of superannuation, Shri Vinod Kumar Sachdeva, Deputy Chief of Mission, Embassy of India, Brasilia, retired from Grade III of the Indian Foreign Service on the afternoon of April 30, 2012.

KARTIK PANDE, Under Secy. (FSP)

No. Q/PA-I/24/2012—Shri Azad Singh Toor, an officer in Grade III of IFS and Ambassador of India to Madagascar (Antananarivo) who superannuated in Grade III of IFS on 31.10.2011 has completed his tenure of re-employment for six months from 01.11.2011 to 30.04.2012.

KARTIK PANDE, Under Secy. (FSP)

The 4th May 2012

No. Q/PA-I/25/2012—The President is pleased to appoint the undermentioned officers, presently in the Junior Administrative Grade (JAG) of the Indian Foreign Service (IFS) to officiate in Grade IV of the Service with effect from the date mentioned against their names:—

Sl. No.	Name	Present Grade	Grade after Promotion	Date of Promotion
1	2	3	4	5
	Shri/Smt./Ms.			
1.	Surinder Kumar Datta	JAG of IFS	Grade IV of IFS	02.01.2012
2.	R. Gaurav Shresth	JAG of IFS	Grade IV of IFS	01.01.2012
3.	Rahul Shrivastava	JAG of IFS	Grade IV of IFS	02.01.2012
4.	Gourangalal Das	JAG of IFS	Grade IV of IFS	02.01.2012
5.	Anurag Srivastava	JAG of IFS	Grade IV of IFS	02.01.2012
6.	Madhumita Hazarika Bhagat	JAG of IFS	Grade IV of IFS	02.01.2012
7.	Devyani Uttam Khobragade	JAG of IFS	Grade IV of IFS	02.01.2012
8.	R. Ravindra	JAG of IFS	Grade IV of IFS	03.01.2012
9.	Ravindra P. Jaiswal	JAG of IFS	Grade IV of IFS	02.01.2012
10.	K. N. Mohanakumaran	JAG of IFS	Grade IV of IFS	01.01.2012
11.	Madhukar Asnani	JAG of IFS	Grade IV of IFS	02.01.2012
12.	Jitendra Kumar Sharma	JAG of IFS	Grade IV of IFS	01.01.2012
13.	J. S. Variaah	JAG of IFS	Grade IV of IFS	02.01.2012

1	2	3	4	5
14.	Rakesh Kumar	JAG of IFS	Grade IV of IFS	02.01.2012
15.	V. K. V. Raman	JAG of IFS	Grade IV of IFS	02.01.2012
16.	Francis Xavier Xaxa	JAG of IFS	Grade IV of IFS	01.01.2012
17.	Ashutosh K. Agrawal	JAG of IFS	Grade IV of IFS	01.01.2012

2. On promotion to Grade IV of IFS, the abovementioned officers relinquished charge of their post in JAG of IFS in the forenoon of the date mentioned against their names and assumed charge of their post in Grade IV of IFS with effect from the forenoon of the same date.

KARTIK PANDE, Under Secy. (FSP)

No. Q/PA-I/26/2012—The President is pleased to appoint the undermentioned officers, presently in Grade III of the Indian Foreign Service (IFS) to officiate in Grade II of the Service with effect from the date mentioned against his name:—

Name	Present Grade	Grade after Promotion	Date of Promotion
Sh. N. Parthasarathi	Grade III of IFS	Grade II of IFS	01.03.2012

2. On promotion to Grade II of IFS, the abovementioned officers relinquished charge of his post in Grade III of IFS in the forenoon of 01 March 2012 and assumed charge of the post in Grade II of IFS with effect from the forenoon of the same date.

KARTIK PANDE, Under Secy. (FSP)

New Delhi, the 26th December 2011

No. Q/PA-I/56/2011—Following superannuation of Shri Azad Singh Toor, an officer in Grade III of IFS and Ambassador of India to Madagascar (Antananarivo) on 31.10.2011(AN), the President is pleased to re-employ Shri Azad Singh Toor, as Ambassador of India to Madagascar (Antananarivo) in Grade III of IFS for a period of six months with effect from 01.11.2011 to 30.04.2011.

SUJA K. MENON, Under Secy. (FSP-II)

MINISTRY OF FINANCE  
(DEPARTMENT OF REVENUE)

New Delhi, the 3rd July 2012

No. 57: (F.No. A.-38014/3/2012-Ad.-I)—Shri H. K. Chowdhury, an officer of the Central Secretariat Service, posted as Section Officer (ad hoc) in the Department of

Revenue, retired from Government Service on 30.06.2012(AN) on attaining the age of superannuation.

V. SREEKUMAR, Under Secy.

No. 58: (F.No. A.-38014/4/2012-Ad.-I)—Shri Satya Prakash Tiwari, an officer of the Central Secretariat Service, posted as Section Officer in the Department of Revenue, retired from Government Service on 30.06.2012(AN) on attaining the age of superannuation.

V. SREEKUMAR, Under Secy.

The 11th July 2012

No. 59: (F.No. A.-19012/1/2010-Ad.-I)—Consequent upon inclusion of his name in the Senior Selection Grade (Director) Select List of CSS for the year 2012 and in pursuance of the Department of Personnel and Training's O.M. No. 3/1/2012-CS-I (D) (P-II) dated 05 July, 2012, the President is pleased to appoint Shri A. K. Chaturvedi, an officer belonging to CSS and presently working as Deputy Secretary in this Department as Director in this Department on regular basis w.e.f. 06.07.2012(FN) and until further orders.

V. SREEKUMAR, Under Secy.

The 12th July 2012

No. 60: (F.No. A.-19013/13/2012-Ad.-I)—The President is pleased to appoint Shri S. L. Anuragi, IRS (IT) as Under Secretary in the Central Board of Direct Taxes of the Department of Revenue for a period of three years w.e.f. 02.07.2012(FN) or until further orders, whichever is earlier.

V. SREEKUMAR, Under Secy.

New Delhi, the 16th July 2012

No. A-35011/3/2011-Ad-ED—The President is pleased to appoint Shri Sanjeev Bhatnagar IRS (C&CE), as Joint Director of Enforcement in the Directorate of Enforcement at Jaipur, on deputation basis, in the Pay Band 3 of Rs. 15,600—39,100/- + G.P. Rs. 7,600/-, w.e.f. from 08.05.2012(AN) up to 24.05.2013, i.e., the balance period of 4 years, or until further orders, whichever is earlier.

R. N. SINGH, Under Secy.

The 17th July 2012

No. A-35011/6/2011-Ad-ED—The President is pleased to appoint Shri D. K. Gupta, IRS (IT), as Additional Director of Enforcement in the Directorate of Enforcement at New Delhi, on deputation basis, in the Pay Band 4 of Rs. 37,400—67,000/- + G.P. Rs. 8,700/-, w.e.f. from 30.05.2012(FN) for a period of 4 years, or until further orders, whichever is earlier.

R. N. SINGH, Under Secy.

No. A-35011/6/2011-Ad-ED—The President is pleased to appoint Shri Anuj Gogia IRS (C&CE), as Additional Director of Enforcement in the Directorate of Enforcement at Mumbai, on deputation basis, in the Pay Band 4 of Rs. 37,400—67,000/- + G.P. Rs. 8,700/-, w.e.f. from 19.06.2012(AN) up to 17.06.2013, i.e., the balance period of deputation of 4 years, or until further orders, whichever is earlier.

R. N. SINGH, Under Secy.

## CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES

New Delhi, the 7th May 2012

No. 8 of 2012 F. No. A-39011/1/2010-Ad.VI—The President is pleased to accept the technical resignation of Shri Rahul Nath from Indian Revenue Service with effect from 16.12.2011.

ANAND UPADHYAY, Under Secy.

## DEPARTMENT OF FINANCIAL SERVICES

New Delhi, the 9th July 2012

No. 8/6/2011-DRT—In exercise of powers conferred by Sub-Section (3) of Section 8 of the Recovery of Debts Due to Banks and Financial Institutions Act, 1993, the Central Government, hereby, authorizes Justice S. N. H. Zaidi, Chairperson, Debts Recovery Appellate Tribunal, Delhi, to Discharge the functions of Chairperson, Debts Recovery Appellate Tribunal, Mumbai, also with immediate effect, until Justice R.M. Chauhan, Chairperson, DRAT, Mumbai resumes duty.

RAJIV SHARMA, Under Secy.

## MINISTRY OF HEAVY INDUSTRIES & PUBLIC ENTERPRISES

(DEPARTMENT OF PUBLIC ENTERPRISES)

New Delhi-110003, the 24th July 2012

No. A-42011/2/2012-Admn.—In pursuance of Department of Official Language Office order No. 5/16/2012-OL (Service) dated 04.06.2012, the President is pleased to appoint Smt. Surekha Bindra as Deputy Director (adhoc) in PB-3 of Rs. 15,600—39,100/- with 6,600/- Grade Pay in Department of Public Enterprises, Ministry of Heavy Industries and Public Enterprises w.e.f. forenoon of 09.07.2012.

RAJENDRA KUMAR, Director

## MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD & PUBLIC DISTRIBUTION

(DEPARTMENT OF FOOD & PUBLIC DISTRIBUTION)

New Delhi, the 19th July 2012

No. A-12022/1/2009-E.I.—Consequent on inclusion of his name in the Senior Selection Grade (Director) Select List of CSS for the year 2012, the President is pleased to appoint

Shri S.P. Shokhanda, Deputy Secretary as Director in the Department of Food & Public Distribution w.e.f. the forenoon of 6th July, 2012 in the Pay Band (PB-4) of Rs. 37,400—67,000/- + Grade Pay Rs. 8,700/- until further orders.

ARUN KUMAR SINGH, Under Secy.

## MINISTRY OF SCIENCE & TECHNOLOGY

(DEPARTMENT OF SCIENCE & TECHNOLOGY)

New Delhi-110016, the 18th July 2012

No. SM/01/04/2011—The President is pleased to appoint the following officer as Deputy Superintending Surveyor, Group 'A' Service in the Pay Band-03 of Rs. 15,600—39,100/- Grade Pay Rs. 5,400/- w.e.f. the date mentioned against his name and until further orders:—

Name	Date of Appointment
Shri Bharat Kumbhar	30.08.2011 (A.N)

N. K. GAYAGI, Dir., SMP

No. SM/01/10/2012—The President is pleased to promote Shri Ishwar Singh Dahiya, Assistant Stores Officer (Group 'B' Post) in Survey of India to the post of Deputy Stores Officer (Group 'A' Post) in the PB-03 (Rs. 15,600—39,100/-) + GP of Rs. 5,400/- in the same organization with effect from 29.06.2012 until further orders.

N. K. GAYAGI, Dir.

## MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS

New Delhi-110003, the 5th July 2012

No. 18012/4/2008-IFS.II—In exercise of the powers conferred by Rule 3(2) of the Indian Forest Service (Probation) Rules, 1968 amended vide rule 2 of Indian Forest Service (Probation) Amendment Rules, 2007, the Central Government hereby confirm the following IFS Officer borne on the Cadre of Bihar in the Indian Forest Service with effect from the date shown against his name :—

Name	Date of appointment	Date of confirmation
Shri Alok Kumar	18.08.2007	18.08.2009

S. S. BADHAWAN, Dir.

The 11th July 2012

No. 17013/05/2011-IFS.II—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of Rule 8 of the Indian Forest Service (Recruitment) Rules, 1966, read with sub-regulation

(1) of Regulation-9 of the Indian Forest Service (Appointment by Promotion) Regulation, 1966, the President is pleased to appoint with immediate effect, the following officers of State Forest Service of Tripura to the Indian Forest Service on the basis of Select List for the year 2010 and allocate them to Tripura segment of Manipur-Tripura Joint Cadre of Indian Forest Service under sub-rule (1) of Rule 5 of the Indian Forest Service (Cadre) Rules, 1966 :—

Sl.No.	Name	Date of Birth
1.	Shri Ajit Kumar Bhowmik	07.12.1956
2.	Shri Goutam Debbarma	10.01.1962

S. S. BADHAWAN, Dir.

New Delhi-110003, the 1st June 2012

No. A-38011/06/2012-P.II—Consequent upon attaining the age of superannuation Smt. Neelam Talwar, PS in the Ministry of Environment and Forests has retired from Government Service from the afternoon of 31st May 2012.

M. K. RAI, Under Secy.

No. A-38011/05/2012-P.II—Consequent upon attaining the age of superannuation Shri Pawan Kumar Agarwal, Deputy Secretary in the Ministry of Environment and Forests has retired from Government Service from the afternoon of 31st May 2012.

M. K. RAI, Under Secy.

The 11th July 2012

No. A-19011/03/2009-P.II(.)—Consequent upon his inclusion in the Senior Selection Grade (Director) Select List of CSS for the year 2012 vide DoP&T Officers Order No. 3/1/2012-CS.I(D) (Pt.II), dated 5th July, 2012, the President is pleased to appoint Shri Alok Agarwal (CSL No. 3776A) as Director in the Pay Band-4 (Rs. 37,400—67,000/-) with Grade Pay of Rs. 8,700/- in the Ministry of Environment and Forests w.e.f. the forenoon of 6th July, 2012.

M. K. RAI, Under Secy.

New Delhi-110003, the 20th July 2012

No. A-32012/01/2005-P.II(.)—In pursuance of the Department of Personnel & Training Office Memorandum No. 6/5/2011-CS.I(S) dated 4th October, 2011 and subsequent clarification vide O.M. No. 6/9/2010-CS.I(S), dated 31st January, 2012, the President is pleased to appoint Shri Kumar Rajiv Ranjan, Assistant of CSS cadre of the

Ministry of Environment & Forests to the post Section Officer of CSS on ad hoc basis in Ministry of Environment and Forests in the Pay Band-2 (Rs. 9,300—34,800/-) with Grade Pay of Rs. 4,800/- w.e.f. 19th July, 2012 for a period upto 31.12.2012 or until further orders or till the regular Section Officer is made available, whichever is earlier :—

2. The ad hoc promotion/appointment is subject to the following conditions :—

- (i) The ad hoc appointment shall not confer on the appointee any right to continue in the grade indefinitely or for inclusion in the Select List of Section Officer for regular appointment or to claim seniority in the Section Officers' grade of CSS; and
- (ii) Ad hoc appointment would continue till regular candidates in Section Officer Grade are available either through Seniority Quota or Limited Departmental Competitive Examination (LDCE). In the event of the ad hoc appointees not qualifying for regular appointment in either of these two categories, they will be reverted to the Assistant's Grade on availability of such regular officers from the date they (regular Section Officers) join duty in their respective cadre units allotted to them by the DoP&T.

M. L. WADHWANI, Under Secy.

New Delhi 0110003, the 24th July 2012

No. 8-17/2012-NMNH(M)(.)—The President is pleased to appoint Mohammad Yunus to the post of Scientist 'C' in the National Museum of Natural History, New Delhi in the Pay Band-3 of Rs. 15,600—39,100/- with the Grade Pay of Rs. 6,600/- on temporary basis with effect from the forenoon of 11th May, 2012, until further orders.

M. M. PANDEY, Under Secy.

#### MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

New Delhi-110011, the 20th July 2012

No. A.12025/157/2007-CHS.I—On the recommendations of the Union Public Service Commission, the President is pleased to appoint Dr. Awadhesh Kumar Yadav in the Medical Officers Grade of the Central Health Service in the Scale of Pay of PB-3 (Rs. 15,600—39,100/- + Grade Pay Rs. 5,400/-) in a temporary capacity with effect from forenoon of the 2nd September, 2009 until further orders. Dr. Awadhesh Kumar Yadav is posted as Medical Officer under National Institute of Communicable Diseases, Varanasi. He will be on probation for a period of two years.

M. K. SHARVAR, Under Secy.

No. A.12025/100/2010-CHS.I—On the recommendations of the Union Public Service Commission, the President is pleased to appoint Dr. Hemant Bansal in the Medical Officers Grade of the Central Health Service in the Scale of Pay of PB-3 (Rs. 15,600—39,100/- + Grade Pay Rs. 5,400/-) in a temporary capacity with effect from forenoon of the 17th January, 2012 until further orders. Dr. Hemant Bansal is posted as Medical Officer under Central Government Health Scheme, Meerut. He will be on probation for a period of two years.

M. K. SHARVAR, Under Secy.

No. A.12025/261/2006-CHS.I—On the recommendations of the Union Public Service Commission, the President is pleased to appoint Dr. Kalpana Verma in the Medical Officers Grade of the Central Health Service in the Scale of Pay of PB-3 (Rs. 15,600—39,100/- + Grade Pay Rs. 5,400/-) in a temporary capacity with effect from forenoon of the 1st September, 2008 until further orders. Dr. Kalpana Verma is posted as Medical Officer under Central Government Health Scheme, Delhi. She will be on probation for a period of two years.

M. K. SHARVAR, Under Secy.

New Delhi, the 24th July 2012

No. A.31013/1/2012-CHS-V—The President is pleased to appoint Dr. D. N. Mishra, Asstt. Professor of TB & CD, substantively to the post of Assistant Professor of Teaching sub-cadre of the Central Health Service, with effect from 14.12.2002.

AMARJIT SINGH, Under Secy.

#### DEPARTMENT OF HEALTH & FAMILY WELFARE

New Delhi, the 6th July 2012

No. A.19014/1/2009-Estt.I—In continuation to this Department's Notification No. A.11013/3/2009-Estt.I dated 30.6.2009 and in pursuance of Department of Personnel & Training Office Memorandum No. 5/2/2009-EO (MM-I) dated 22.6.2012, the President is pleased to appoint Smt. M. Sudhadevi, IAS (HP:2003) as Private Secretary to the Minister of State for Health and Family Welfare (Shri S. Gandhiselvan) at the level of Deputy Secretary in the Ministry of Health & Family Welfare with effect from the forenoon of 1st July 2012 upto 17.6.2014 or till she ceases to function as Private Secretary to the Minister or until further orders, whichever event occurs the earliest.

ANIL KUMAR, Under Secy.

The 17th July 2012

No. A.32013/03/10-E.I—Consequent upon inclusion of his name in the CSS Senior Selection Grade (Director) Select List for the year 2012 and in pursuance of Department of



Personnel & Training's Order No. 3/1/2012-CS.I(D)(P-II) dt. 05th July, 2012, Sh. Bakshi Ram (CSL No. 4355), an officer of Selection Grade (Deputy Secretary) of CSS is hereby appointed to the Senior Selection Grade (Director) of CSS on regular basis in the Department of Health & Family Welfare with effect from the forenoon of 05.07.2012.

ANIL KUMAR, Under Secy.

#### MINISTRY OF TRIBAL AFFAIRS

New Delhi, the 11th July 2012

No. 19011/16/2010-Estt.—Consequent upon the inclusion of her name in the Senior Selection Grade (Director) Select List of CSS for the year 2012 vide Department of Personnel & Training Order No. 3/1/2012-CS-I(D)(P-II) dated 05.07.2012, the President is pleased to promote and appoint Smt. Sunita, presently working as Deputy Secretary in the Ministry of Tribal Affairs to the post of Director in Ministry of Tribal Affairs with effect from the forenoon of 09.07.2012.

N. RAMAKRISHNAN, Under Secy.

#### MINISTRY OF COMMUNICATIONS & INFORMATION TECHNOLOGY

##### (DEPARTMENT OF TELECOMMUNICATIONS)

New Delhi-110001, the 3rd July 2012

No. A.32013/4/2010-Admn.I—In continuation of notifications of even number dated 29-06-2012, 26-09-2011 and 11-01-2012, the President is pleased to extend ad hoc appointment of the following Under Secretaries upto 31-05-2013 or till the posts are filled up on regular basis, whichever is earlier in terms of DoP&T's Order No. 5/7/2011-CS.I(U) dated 29-05-2012 :—

Sl. No.	Name
1.	Shri Uday Narayan Sinha
2.	Shri Karma Wangdi Sherpa
3.	Smt. Rama Marwaha
4.	Shri Vijay Kumar
5.	Shri Deo Nath Sah
6.	Ms. Neha Singh
7.	Shri Ajay Kumar VR
8.	Shri Atish Kamal Srivastava
9.	Shri Paramjeet Chadha
10.	Shri Ramesh Chand Ahuja
11.	Shri Ram Dutt
12.	Shri H. Chinzason

2. The appointment of the officers, as above, is subject to the following conditions :—

- The ad hoc promotion shall not confer any right to continue in the grade indefinitely or for inclusion in the Select List for regular appointment or to claim seniority in the Grade I of the CSS.
- Ad hoc appointments may be terminated at any point of time without giving any reason therefore.
- The officers, who have not undergone mandatory Level 'D' Training as enjoined in cadre training plan for the CSS, will undergo the aforesaid training within a period of six months.
- The ad hoc promotion of officers shall be subject to the final outcome in the OA No. 3294/2009 titled Shri P. R. Sharma Vs UoI and OA No. 2674/2009 titled Shri P. S. Bhandari Vs UoI & Ors. pending before the CAT, New Delhi.

NIRMALA DEV, Under Secy.

New Delhi-110001, the 17th July 2012

No. A.32014/1/2008-Admn.I—The President is pleased to permit the following Assistants of CSS Cadre of Department of Telecommunications to continue to officiate as Section Officers of CSS Cadre on ad hoc basis in the Pay Band 2 in the pay scale of Rs. 9,300—34,800/- + Rs. 4,800/- (Grade Pay) in the cadre of Department of Telecommunications further for the period of six months w.e.f. 01.07.2012 to 31.12.2012 or till the date of retirement or till the availability of regular Section Officers of CSS cadre or until further orders, whichever is earlier:—

S. No.	S. No. as per DoP&T's list	Name	DoB	Category	CSL/Year
1	2	3	4	5	6
(S/Shri/Smt./Kum.)					
1.	827	Ved Prakash-I*	09.07.1952	SC	1995
2.	828	Gurvinder Kaur	29.12.1952	Gen	1996
3.	829	V. K. Sharma	08.10.1953	Gen	1993
4.	830	Sunita Sharma	29.10.1953	Gen	1997
5.	831	Sudha Sharma	31.01.1954	Gen	1994
6.	832	N. C. Ekka	06.03.1954	ST	1997
7.	833	Harminder Singh	20.09.1954	Gen	1997
8.	834	Ved Prakash-II	01.10.1954	SC	2001
9.	835	Anita Utreja	14.01.1955	Gen	1999
10.	836	Rita Makhija	02.01.1956	Gen	1998

1	2	3	4	5	6
11.	837	N. K. Tomar	30.06.1956	Gen	2001
12.	838	Kanta Kumari	07.11.1956	SC	1999
13.	839	S. P. Genguly	21.04.1957	Gen	1999
14.	840	Surender Kumar	10.11.1957	Gen	1999
15.	841	M. L. Meena	30.09.1960	ST	2001
16.	842	T. C. Meena	15.01.1964	ST	1996
17.	843	Rajeev Lochan	20.08.1973	Gen	1999

\*Shri Ved Prakash-I is due to retire on superannuation w.e.f. 31.7.2012.

2. The above Officers are free from vigilance enrole.

3. Ad-hoc promotion/appointment to the grade of Section Officer is subject to the following conditions:—

- The ad-hoc appointments shall not confer on the appointees any right to continue in the grade indefinitely or for inclusion in the Select List of Section Officers for regular appointment or to claim seniority in the Section Officer's Grade of CSS;
- ad-hoc appointment would continue till regular candidates, in Section Officer Grade are available either through seniority quota or Limited Departmental Competitive Examination (LDCE). In the event of the ad-hoc appointees not qualifying for regular appointment in either of these two categories, they will be reverted to the Assistant's grade on availability of such regular officers from the date the regular Section Officers join duty in their respective cadre units allotted to them by the Deptt. of Personnel & Training.

VIMAL, Under Secy.

#### DEPARTMENT OF INFORMATION TECHNOLOGY (NATIONAL INFORMATICS CENTRE)

New Delhi-110003, the 20th July 2012

No. 6305/NIC/2012-Adm.II—The Director General, NIC is pleased to accept the resignation of Sh. Prateek Gupta, (Emp. Code No. 6305), from the post of Scientific Officer/Engineer Gr. SB, National Informatics Centre-U.T. Unit, Chandigarh, with effect from the afternoon of 28.5.2012 and he is relieved of his duties from the same date.

SUBHASH DUTTA, Deputy Director (Adm-II)

No. 6319/NIC/2012-Adm.II—The Director General, NIC is pleased to accept the resignation of Sh. Vivek Goel, (Emp. Code No. 6319), from the post of Scientific Officer/Engineer Gr. SB, National Informatics Centre-District Centre, Rewari, Haryana, with effect from the afternoon of 11.8.2011 and he is relieved of his duties from the same date.

SUBHASH DUTTA, Deputy Director (Adm-II)

#### STANDARDISATION, TESTING & QUALITY CERTIFICATION DIRECTORATE

New Delhi-110003, the 25th July 2011

No. 2(3)/2012-PA(TA)—The President is pleased to appoint Shri Manohar Sodhi, Deputy Director of STQC Directorate, Department of Electronics and Information Technology as Joint Director in the Pay Band-3 i.e. Rs. 15,600—39,100/- + Grade Pay Rs. 7,600/- w.e.f. 03.07.2012 (FN).

S. RAMAKRISHNAN, Deputy Director

#### MINISTRY OF RAILWAYS (RAILWAY BOARD)

New Delhi, the 11th June 2012

No. 2005/E(GR)II/7/12Vol.II—The President is pleased to appoint the following Doctors as Assistant Divisional Medical Officers selected on the basis of Combined Medical Services Examination, 2004 in the Indian Railway Medical Service with effect from the dates noted against each:—

S. No.	Name	Date of joining
1	2	3
	(Dr.)	
1.	(Ms.) Vimala V.*	24.05.2006
2.	Reddish Babu K.	09.06.2006
3.	Sujeet Kumar	07.11.2006
4.	Rahul Upadhyay*	24.05.2006
5.	Kumar Ranganathan	07.06.2006
6.	Arif Ali Khan*	31.05.2006
7.	Akhilesh Kumar	08.11.2006
8.	Shiv Shankar Nayak	05.06.2006
9.	Md. Moazul Haque	17.07.2006
10.	(Ms.) Anupama	18.08.2006
11.	Prakash Kumar Mishra	16.06.2006
12.	Breejendra Kumar Mishra	06.11.2006
13.	Pankaj Kumar	13.06.2006
14.	(Ms.) Shaveta Sabherwal*	07.11.2006
15.	Pankaj Goel*	26.12.2006
16.	Radha Kant Pandey*	09.06.2006
17.	Rajarajan E.P.*	31.05.2006
18.	Bhupendra Kumar*	30.10.2006
19.	Puneet Gupta	17.05.2006
20.	(Ms.) Shina S.	22.05.2006

1	2	3
	(Dr.)	
21.	Gobinda Mondal*	07.11.2006
22.	Singh Vijaykumar Durgaprasad	06.11.2006
23.	(Ms.) Reena Garg	22.05.2006
24.	Satya Kinkor Dey	07.11.2006
25.	Lade Nitin Ram Chandra	09.06.2006
26.	Dinesh Pathak*	14.05.2007
27.	(Ms.) Shruti Mendhekar	23.05.2006
28.	Umesh Maurya	06.11.2006
29.	Jyotibash Sahoo	01.09.2006 (A/N)
30.	Patil Yoganand Vishwasrao	19.05.2006
31.	Manikant Kumar*	07.11.2006
32.	Kailash Prasad Verma	26.10.2006
33.	(Ms.) Anita Singh	17.05.2006
34.	Kumar Nirbhay	22.05.2006
35.	Raj Kumar R.	03.10.2006
36.	Pankaj Keshavrao Patil	02.06.2006
37.	Dibyendu Sarkar	24.05.2006
38.	Suhas Murlidhar Gajbhiye	09.06.2006
39.	Bighnaraj Pal	13.06.2006
40.	(Ms.) Manisha Deka	05.06.2006
41.	(Ms.) Ritu Singh	05.06.2006
42.	Shyam Soren	28.08.2006 (A/N)
43.	(Ms.) Anuradha Chopra	29.11.2007
44.	(Ms.) Shuchi Saxena	06.12.2007
45.	(Ms.) Shavika Gupta	24.01.2008
46.	(Ms.) Tanushree Joshi	04.02.2008
47.	(Ms.) Neeti Gupta	07.02.2008
48.	(Ms.) Dolly Parmar	05.08.2008
49.	Manjesh Rathi	30.09.2008
50.	Gautam Goyal	22.10.2008
51.	Kawade Manish Shamrao	31.07.2009

\* Provisionally notified subject to character & antecedents being verified.

RASHMI CHOWDHARY, Executive Dir./E(GC)

The 23rd July 2012

No. 2007/E(GR)II/7/1/ Vol.II—The President is pleased to appoint the following Doctors as Assistant Divisional Medical Officers selected on the basis of Combined Medical

Services Examination, 2005 in the Indian Railway Medical Service with effect from the dates noted against each :—

Sl. No.	Name	Date of Joining
	(Dr.)	
1.	Jasmeet Singh Ahluwalia	20.11.2007
2.	Kapil Bhola	30.05.2007
3.	(Ms.) Anupama Verma	18.06.2007
4.	(Ms.) Urmil Gupta	29.05.2007
5.	Sachit Bhola	30.05.2007
6.	(Ms.) Bishakha Dey	27.06.2007
7.	(Ms.) Shikha Agarwal	13.06.2007
8.	Bhaskar Das	28.06.2007
9.	Chiranjib Sarkar	22.06.2007
10.	Sudhendu Shekhar	23.11.2007
11.	(Ms.) Sushma Singhal	23.11.2007
12.	Amit Shersia	18.03.2008
13.	(Ms.) Krishna Pegoo Baishya*	08.10.2007
14.	Rafi Ahmad	01.11.2007
15.	Kapil Dev Soni	23.11.2007
16.	(Ms.) Arathi Bapu Phape	08.06.2007
17.	Santosh Kumar Yadav	27.07.2009
18.	Yogesh	21.06.2007
19.	(Ms.) Maneesha Singh	11.06.2007
20.	(Ms.) Ratan Probha (Dhanwar) Tigga	15.10.2007
21.	(Ms.) Mandeep Kaur	04.02.2010
22.	(Ms.) Chaitali Basu	14.08.2009
23.	Kulkarni Anuja S.	30.12.2008
24.	Niraj Kumar Srivastava	22.09.2008
25.	(Ms.) Neha Jindal	14.09.2009
26.	Lakshmi Dey	10.09.2009
27.	Kumar Abhishek	24.02.2010
28.	(Ms.) Divya Yadav	25.08.2009
29.	(Ms.) Richa Gangwar	03.03.2009
30.	Waghmare Kailas Sopan	06.01.2009

\*Provisionally notified subject to character & antecedents being verified.

RASHMI CHOWDHARY, Executive Dir./E (GC)

New Delhi, the 23rd July 2012

No. E(O)III-2012/RN/25—Consequent upon his permanent absorption in Rail Vikas Nigam Limited, Shri Surendra Kumar, SAG/IRSE, has resigned from Railway Service with effect from 23.04.2012 (AN).

R. C. JAT, Secy.  
(Railway Board)

No. E(O)III-2012/RN/26—Consequent upon his permanent absorption in Air India Ltd., the technical resignation of Shri N. K. Jain, a Senior Administrative Grade Officer of the Indian Railway Personnel Service (DoB : 28.03.1962, DITS : 15.02.1988), from Railway Service has been accepted with effect from 05.07.2012.

R. C. JAT, Secy.  
(Railway Board)

#### MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

New Delhi, the 13th July 2012

No. A-12025/1/2012-E.II—The President is pleased to appoint Shri Devendra Chapekar as Assistant Executive Engineer (Civil) of Central Engineering Service (Roads) Group 'A' in the Ministry of Road Transport and Highways, New Delhi in the Pay Band of Rs. 15,600—39,100/- with the Grade Pay of Rs. 5,400/- with effect from 29.06.2012 (FN) and until further orders.

D. R. SHARMA, Under Secy.

#### MINISTRY OF POWER

New Delhi, the 23rd July 2012

No. 17/2012. F. No. A-32013/10/2012-Adm. I—On the recommendations of the Departmental Promotion Committee (Group 'A'), the President is pleased to appoint the following Officers in the Senior Time Scale Grade of the Central Power Engineering (Group 'A') Service, in the Scale of Rs. 15,600—39,100/- + Grade Pay of Rs. 6,600/- in the Central Electricity Authority, with effect from the dates mentioned against their names, until further orders :—

Sl. No.	Name	Date of Appointment
	(S/Shri)	
1.	Arun Kumar Panwar	03.07.2012 (F/N)
2.	Smt. P. E. Kamala	03.07.2012 (F/N)
3.	Absar Ahmed	03.07.2012 (F/N)
4.	Om Kant Shukla	03.07.2012 (F/N)
5.	Manoj Kumar Diwan	03.07.2012 (F/N)
6.	L. Satyanarayana	03.07.2012 (F/N)
7.	Kamal Khemchandini	03.07.2012 (F/N)
8.	Ashish Goel	03.07.2012 (F/N)
9.	Sovaran Singh Banoria	03.07.2012 (F/N)

MADHUKAR SOOD, Under Secy.

#### MINISTRY OF WATER RESOURCES

New Delhi, the 19th July 2012

No. 04/2012. F. No. 20/28/2003-Admn. (Pt.)—Consequent upon his inclusion in the Senior Selection Grade (Director) of Central Secretariat Service (CSS) for the year 2012, the President is pleased to appoint Shri Mohan Charan Chand, Deputy Secretary in the Ministry of Water Resources as Director in PB-4 of Rs. 37,400—67,000/- + Rs. 8,700/- (Grade Pay), as a measure personal to him, w.e.f. the forenoon of 06.07.2012.

L. P. SHARMA, Under Secy.

No. 05/2012. F. No. 20/28/2003-Admn. (Pt.)—Consequent upon his inclusion in the Senior Selection Grade (Director) of Central Secretariat Service (CSS) for the year 2012, the President is pleased to appoint Shri Ram Swaroop, Deputy Secretary in the Ministry of Water Resources as Director in PB-4 of Rs. 37,400—67,000/- + Rs. 8,700/- (Grade Pay), as a measure personal to him, w.e.f. the forenoon of 06.07.2012.

L. P. SHARMA, Under Secy.

New Delhi, the 24th July 2012

No. 13/2012. F. No. 25/1(21)/2012-E.I—On the results of the Engineering Services Examination, 2010, the President is pleased to appoint Shri Vipin Kumar Singh to officiate as Assistant Director/Assistant Executive Engineer (Civil & Mechanical) of the Central Water Engineering (Group-'A') Service in the PB-3, Pay Scale of Rs. 15,600—39,100/- with Grade Pay of Rs. 5,400/- in the Central Water Commission with effect from 05.07.2012 (FN).

2. Shri Vipin Kumar Singh will be on probation for a period of two years with effect from the date of joining, which may be extended, if considered necessary.

NARENDRA SINGH, Under Secy.

No. 14/2012. F. No. 25/1(22)/2012-E.I—On the results of the Engineering Services Examination, 2010, the President is pleased to appoint Shri Vivek Kumar Verma to officiate as Assistant Director/Assistant Executive Engineer (Civil & Mechanical) of the Central Water Engineering (Group-'A') Service in the PB-3, Pay Scale of Rs. 15,600—39,100/- with Grade Pay of Rs. 5,400/- in the Central Water Commission with effect from 01.06.2012 (AN).

2. Shri Vivek Kumar Verma will be on probation for a period of two years with effect from the date of joining, which may be extended, if considered necessary.

NARENDRA SINGH, Under Secy.

प्रबन्धक, भारत सरकार मुद्रणालय, फरीदाबाद द्वारा मुद्रित  
एवं प्रकाशन नियंत्रक, दिल्ली द्वारा प्रकाशित, 2012  
PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, FARIDABAD AND  
PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 2012